



# मधुबनी में हर साल की तरह इस साल भी जुलूस-ए मोहम्मदी 16/सितम्बर को :डिप्टी मेयर



**संवाददाता**  
रोजनामा इंडो गल्फ  
अबु बकर  
मधुबनी, अंजुमन ए इतेहादे मिल्लत बड़ा बाजार मस्जिद चौक मधुबनी के जेरे इतेहाद मद्रसा अनवर रजा सुनी जामा मस्जिद में जुलूस-ए मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के त?अललुक से एक अहम नशिसत

मुन?अकिद की गई जिस की सदरत डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने किया इतेहादक राय से यह फैसला लिया गया है कि हर साल की तरह इस साल भी जुलूस-ए मोहम्मदी 16/सितम्बर 2024 दिन सोमवार मस्जिद चौक बड़ा बाजार अंजुमन ए इतेहादे मिल्लत के बैनर तले निकाला जाएगा जो मुखलिफ चौराहों से होते हुए मस्जिद

चौक पर आ कर सलात व सलाम और दुआए खैर पर इखतेताम पजीर होगवह बात वाजे रहे कि यह जुलूस ए मोहम्मदी हमेशा सूड़ी हाई स्कूल से निकाला जाता था लेकिन इस मर्तबा इंद्र पूजा होनी की वजह से मस्जिद चौक ही निकाला जाएगा। जुलूस ए मोहम्मदी ठीक 9/बजे दिन 16/सितम्बर बरोज सोमवार को मस्जिद चौक से निकल



जाएगा। लेहाजा जितने भी जुलूस-ए मोहम्मदी की कमेटीया हैं मोकरा वक्त पर जुलूस ए मोहम्मदी में शिकत फरमा कर जुलूस को कामयाब बनाएँ नीज इस बात का जरूर ख्याल रखें कि जुलूस में अफराताफरी और डी जे वगैरह के इस्तेमाल से परहेज करें और इस्लामी ड्रेस में तशरीफ लाएँ इस लिए के यह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

का मिलादुनबी का जुलूस है शोरका ए नशिसत मौलाना जमीरुद्दीन, मौलाना मोहम्मद आलम, मौलाना गुलाम मुर्तजा, मौलाना अनजार, मौलाना मोहम्मद अमजद रजा मजहरी, मौलाना अबुल कलाम, हाफिज इरशाद, हाफिज खालिद जमाल, कारी महमूद आलम बरकाती, अमानुल्लाह खॉं ,झुने खॉं , मोहम्मद चांद बाबू, गुलाम

मोहम्मद, गुलाम गौस, अबुल कलाम, जफरी अहमद, मोहम्मद आलम, मोहम्मद उस्मान, मिर्दू बाबू, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद इरफान, झुना खान, चांद बाबू, शोहराब आलम, जावेद रजा, अबुल कलाम खान, समीउल्लाह अंसारी, गुलाम मुहम्मद, इरफान रजा, मोरजी सहित बड़ी संख्या अन्य लोग मौजूद थे.

**ईद-मिलादु-उन-नबी की मुबारकबाद**

अल्लाह आपको ईद के मुकदस मौके पर तमाम खुशियां अता फरमाएं और आपकी इवादात कबूल करें।

**रुखसाना खातून** **बस्तानी खान**

(अध्यक्ष:- नगर पंचायत कोपा सारण) **चेयरमैन प्रतिनिधि**

## राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी अंडर-14 (बालिका) एवं कराटे अंडर-14 (बालक) खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु आयोजन समिति की बैठक का आयोजन किया गया



**रिश्तसंवाददाता**  
रोजनामा इंडो गल्फ  
मोहम्मद जुबैर  
शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जिला पदाधिकारी श्री रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी अंडर-14 (बालिका) एवं कराटे अंडर-14 (बालक) खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु आयोजन समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

विद्यालय कराटे (बालक) अंडर-14 खेल प्रतियोगिता का आयोजन 22.10.2024 से 24.10.24 तक किया जाना है। कबड्डी प्रतियोगिता में प्रत्येक जिले से 12 खिलाड़ी एवं 2 दल प्रभारी एवं प्रशिक्षक की दर से कुल 468 खिलाड़ी एवं 78 दल प्रभारी एवं प्रशिक्षक की प्रतिभागिता इस खेल में होनी है, वहीं कराटे प्रतियोगिता में 22 जिले से 6 खिलाड़ी एवं 02 दल प्रभारी एवं प्रशिक्षक की दर से कुल 132 खिलाड़ी एवं 44 दल प्रभारी एवं प्रशिक्षक की प्रतिभागिता इस खेल में होनी है। कबड्डी प्रतियोगिता के लिए आयोजन का स्थल पटेल मैदान समस्तीपुर निर्धारित किया गया है। बैठक के क्रम में आगामी खेल

प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु जिला पदाधिकारी ने कई दिशा निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी ने सर्वप्रथम जिला खेल पदाधिकारी को खेल प्रतियोगिता आरंभ होने के पहले मैदान को पूरी तरह तैयार करने का निर्देश दिया एवं आयोजन स्थल का रूपरेखा बनाने की भी कहा। इसी प्रकार जिला पदाधिकारी ने सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखने एवं आयोजन स्थल पर बैरिकेडिंग करने का भी निर्देश दिया। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहले से ही चिकित्सा कक्ष तैयार करने का भी निर्देश दिया गया बैठक में पाया गया कि अब तक आवासन स्थल का चयन पूर्ण नहीं हो पाया है।

## शानदार व जानदार होगा जशन-ए-ईद मिलादुन्नबी का जलसा सादगी, सौम्यता और अनुशासन के साथ जुलूस-ए-मुहम्मदी निकालने की अपील

**वरिष्ठसंवाददाता**  
रोजनामा इंडो गल्फ  
शकील हैदर  
छपरा: पैगंबर हजरत मुहम्मद सअ की यौम-ए-पैदाइश पर रविवार को आयोजित जशन-ए-ईद मिलादुन्नबी का जलसा शानदार और ऐतिहासिक होगा। उक्त बातें शुक्रवार को केन्द्रीय इस्लामिक संस्था दारुल उलूम नर्सिया, जामा मस्जिद साहेबगंज के प्रांगण में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए पेशे-इमाम सह प्रिंसिपल मौलाना हामिद रजा मिस्वाही ने कहीं। उन्होंने बताया कि जामा मस्जिद में 15 सितंबर रविवार को रात्रि में जशन-ए-ईद मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जायेगा। कॉन्फ्रेंस में देश-विदेश के नामवर उलेमा शिकत करेंगे। जिनमें मौलाना डॉ जाकिर हुसैन गवावी, अल्लामा फैयाज मुस्तफा मिस्वाही अलीगंज प्रमुख हैं। इस अवसर पर शायर-ए-



इस्लाम महबूब जफर दिल्ली, शहबाज रजा नूरी कोलकाता, रहमत लतीफी नेपाल समेत सलीम

नाबीना व गुलाम अहमद रजा आदि भी महफिल को गुलनार बनाएंगे। मौलाना हामिद ने आगे बताया कि

सोमवार को सुबह फजिर की नमाज के बाद जुलूस-ए-मुहम्मदी का आयोजन किया जाएगा। जो

साहेबगंज, थाना चौक, मजहरुल हक पथ, अस्पताल चौक, दारोगा राय चौक होते हुए जुमनी मस्जिद तक जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं तमाम मुसलमानों से यह अपील करता हूँ कि नबी की आमद का जशन इस तरह मनाएँ कि किसी को थोड़ी भी तकलीफ न पहुंचे। जुलूस निहायत शाइस्तगी, सादगी, सौम्यता और अनुशासन से निकालें। उसमें डीजे वगैरह का प्रयोग बिलकुल भी न किया जाए। बल्कि अपने जशन से ऐसा पैगाम दुनिया तक पहुंचाया जाए कि लोग देखते ही कह उठें कि जब नबी पाक के मानने वाली कोम ऐसी है तो इनके पैगम्बर कैसे होंगे। उन्होंने बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए मदरसा के शिक्षक, छात्र और कमेटी के सदस्य पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर अराकीन-ए-कमेटी, आयोजन समिति के सदस्य और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

## जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों के आलोक में अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश

**संवाददाता**  
रोजनामा इंडो गल्फ  
अबु बकर  
मधुबनी जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने "जनता के दरबार में जिलाधिकारी" कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों के आलोक में अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश। जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर त्वरित निष्पादन करे अधिकारी-जिलाधिकारी। जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा के द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित "जनता के दरबार में जिलाधिकारी" कार्यक्रम में जिले के सुदूर क्षेत्रों से आए हुए परिवारियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया है। गौरतलब हो कि प्रत्येक सप्ताह



शुक्रवार को जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवारियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार, 13 सितंबर

को कुल 96 परिवारों अपनी शिकायतों के साथ जिलाधिकारी से मिले। बिस्की प्रखंड निवासी मो० नूर आलम एवं अन्य ने शिकायत किया कि कुछ लोग सरकारी रास्ता को घेर कर अपना मकान बनाना चाहते हैं। अंचल कार्यालय राजनगर के वाहन चालक

सुरेश गेरेडी के द्वारा आवेदन दिया गया कि उनकी दैनिक मजदूरी अंचल अधिकारी एवं कार्यालय के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रखंड रहिका निवासी पिंकी देवी के द्वारा सहारा इंडिया में जमा किए गए राशि को सहारा इंडिया से दिलाने से संबंधित

आवेदन दिया गया। झांझारपुर प्रखंड निवासी रसीदा खातून के द्वारा आग लगने से उनके पति की मृत्यु के उपरांत सरकार के द्वारा मिलने वाले अनुदान राशि देने से संबंधित आवेदन दिया प्रखंड लखनऊ निवासी ब्रह्मदेव यादव, कुंदन कुमार ठाकुर एवं अन्य के द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा कर लेने से संबंधित शिकायत किया। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवारियों से बारी-बारी से शिकायतें सुनी गईं और उनके परिवाद के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कई प्राप्त शिकायतों के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों को फोन कर जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर डीडीसी दीपेश कुमार, अपर समाहर्ता शैलेश कुमार भी उपस्थित थे।

## महात्मा गाँधी के जन्म दिन पर लोहिया स्वच्छ बिहार चलेगा अभियान

**संवाददाता**  
रोजनामा इंडो गल्फ  
संवाददाता हुसैनगंज (सीवान) सीवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड के बीडीओ राहुल कुमार ने प्रेस विज्ञापित जारी करते हुए बताया कि महात्मा गाँधी के जन्म दिन के शुभ अवसर पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं लोहिया स्वच्छता योजना में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का संचालन होने जा रहा है। बीडीओ श्री राहुल ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण बिहार का द्वितीय चरण अन्तर्गत खुले में शौच से मुक्ति का स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए टोक व तरल अवशेष प्रबंधन द्वारा बिहार में 2024-25 तक सभी गाँवों को हृद्यित स्वच्छ तथा ओडीएफ प्लास बनाया जाना सरकार का लक्ष्य है।



इस अभियान का आयोजन 14 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलाने की पूरी तरह तैयारी कर ली गई है। बीडीओ ने बताया कि इस अभियान का थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता है। स्वच्छता ही सेवा के

रूप में इस वर्ष क्षेत्र में बदलाव एवं उपलब्धियों को उसव के रूप मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नदी के घाटों को साफ सफाई, नाली, सड़क सहित अन्य स्थानों की सफाई, घरों से निकले कुड़े करकट को सुरक्षित स्थान पर रखना, खुले मैदान में शौच नहीं करना, घर का पानी बाहर खुले में गिरता हो तो पानी सोखता बनाना, घर के आसपास साफ सफाई रखना जैसे अनेकों कार्य इस अभियान के अन्तर्गत करने की योजना सरकार द्वारा चलाई जायेगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों तथा शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों को अग्रगत कराया जा रहा है। इस अभियान का प्रचार प्रसार अन्य माध्यमों के द्वारा भी कराया जा रहा है।

## देह व्यापार की सूचना पर समस्तीपुर होटल में हुए रेड मामले में 6 लोगों पर FIR दर्ज, संचालक हुआ फरार, युवतियां अभिभावकों को सुपुर्द



**संवाददाता**  
रोजनामा इंडो गल्फ  
मोहम्मद जुबैर

समस्तीपुर: समस्तीपुर नगर थाना अंतर्गत स्टेशन रोड स्थित अमित रेस्ट हाउस में बुधवार को दोपहर

देह व्यापार की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा की गई छापेमारी मामले में नगर थाने की

पुलिस ने सात नामजद लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें से छह लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है वहीं रेस्ट हाउस का संचालक फरार चल रहा है पुलिस ने रेस्ट हाउस के संचालक नगर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला निवासी भरत चौधरी के पुत्र अमित चौधरी, होटल के मैनेजर अनंशुभा देवी थाना क्षेत्र के हरपुर रेवाड़ी निवासी रामविलास राय के पुत्र सुरेश राय, वारिसनगर थाना क्षेत्र के अर्जुन कुमार, नगर थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार निवासी अनुराग कुमार, विथान थाना क्षेत्र के उजान निवासी अजय कुमार, कपूरगाम थाना क्षेत्र के राजखंड निवासी अभिषेक कुमार व खानपुर थाना क्षेत्र के कन्हैया कुमार सिंह शामिल हैं। वहीं हिरासत में लिए गये युवतियों को उनके अभिभावकों को बुलाकर सुपुर्द कर दिया गया है।

## एकमा थानान्तर्गत देशी कट्टा के साथ 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

**संवाददाता**  
रोजनामा इंडो गल्फ  
दिनांक-13.09.24 को एकमा थाना कांड-326/24 के अनुसंधान के क्रम में वादी मुकेश प्रसाद, पिता-भोला प्रसाद, साकिनऽथाना-एकमा, जिला-सारण के घर जा कर पूछ-ताछ के दौरान वादी के लड़के आदित्य कुमार के मोबाइल में देशी कट्टा के साथ कुछ फोटो पाया गया। जिस संबंध में पूछने पर आदित्य कुमार द्वारा बताया गया कि भरे पास देशी कट्टा विगत 4-5 महीने से है, जिसे मैं अपने दोस्त आदर्श कुमार, पिता-अरविन्द सिंह, साकिनऽथाना-एकमा, जिला-सारण को रखने को दिया हूँ। आदित्य कुमार के निशानदेही पर आदर्श कुमार के घर पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया व पूछ-ताछ कर देशी कट्टा को



आदर्श कुमार के घर से बरामद किया गया। इस संबंध में एकमा थाना कांड सं०-329/24, दिनांक-13.09.24, धारा-25(1-बी)ए/26/35 अमर्स

एक्ट दर्ज कर उक्त दोनों अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम एवं पता:-

1. आदित्य कुमार, पिता-मुकेश प्रसाद, साकिनऽथाना-एकमा, जिला-सारण।
  2. आदर्श कुमार, पिता-अरविन्द सिंह, साकिनऽथाना-एकमा, जिला-सारण।
- ? जन्म/बरामद सामानों की विवरणी:-
1. देशी कट्टा-01,
  2. मोबाइल-02
- ? टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी:-
- पु०अ०नि० उमाचंद्र शर्मा, प्र०पु०अ०नि० कुणाल कुमार, प्र०पु०अ०नि० बालमुकुन्द, स०अ०नि० प्रभाकर कुमार, एकमा थाना एवं थाना के अन्य कर्मी।
- सारण पुलिस से सदैव तत्पर।



## BRIEF NEWS

167 लीटर विदेशी शराब के साथ दो कारोबारी अरेस्ट

**NAWADA** : गुरुवार को नवादा जिले के रजौली थानाक्षेत्र के चितरकोली स्थित समेकित जाँच चौकी से वाहन जाँच के दौरान विदेशी शराब के साथ दो कारोबारी की गिरफ्तारी सहित एक यात्री बस को जप्त किया गया है। एसआई उत्पाद संगम कुमार विद्यार्थी ने बताया कि समेकित जाँच चौकी पर हमेशा झारखंड की ओर से आनेवाली हर वाहनों की जाँच की जाती है लेकिन वरीय अधिकारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि यात्री बसों से शराब की तस्करी की जा रही है।

15 जिलों के एसपी समेत 29 आईपीएस का तबादला

**PATNA** : बिहार पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है। गोपालगंज, समस्तीपुर, पूर्णिया समेत 15 जिलों के पुलिस अधीक्षक (एसपी) का तबादला कर दिया गया है। राजधानी पटना के तीनों सिटी एसपी भी बदल दिए गए हैं। गृह विभाग की ओर से भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 29 अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग संबंधी अधिसूचना गुरुवार को जारी की गई।

नवादा में सड़क पर गिरकर अघेड़ की मौत

**NAWADA** : नवादा नगर के पटना-रांची राष्ट्रीय उच्च पथ पर गुरुवार को नवादा नगर थाने के डाक बाबा के निकट वाहन से उतरने के दौरान एक व्यक्ति सड़क पर गिर गए, जिनके मुँह से खून तथा झाग निकल रहा था। आसपास के लोगों ने मिलकर उस अघेड़ को घर्माशिला अस्पताल पहुंचा दिया, जहाँ उसकी मौत हो गई। मृतक की तस्वीर को सोशल मीडिया पर डाला गया, जिससे पता चला कि वह व्यक्ति नवादा जिले के नरहट थाने के खनवा गांव के निवासी जीवो सिंह थे। जो अपने वाहन से नवादा आए थे। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। जिस कारण उनके मुँह से खून तथा झाग निकलने लगा। अस्पताल पहुंचाने के बाद उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का सही-सही पता लगाया जा सकेगा। उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया।

13 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

**PATNA** : बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। राज्य के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। शाम सवा 6 बजे तक के लिए चेतावनी जारी हुई है। बिहार के जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है उनमें समस्तीपुर, जमुई, बांका, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली और शेखपुरा जिला शामिल है। इससे पहले लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय जिले के लिए भी अलर्ट जारी हुआ था। पटना मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि अगले दो दिनों तक राज्य में बारिश और वज्रपात की संभावना है। जहाँ एक ओर शुक्रवार यानी 13 सितंबर को प्रदेश के 27 जिलों में बारिश होगी, वहीं 14 सितंबर यानी शनिवार को राज्य सभी 38 जिलों में बारिश होने की प्रबल संभावना है।

अब दवाइयों के लिए इधर-उधर भटकने की नहीं होगी जरूरत

## बिहार के 27 जिलों में खुलेंगे औषधि भंडार केंद्र

**AGENCY PATNA** :

बिहार के विभिन्न जिलों में स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और अन्य अस्पतालों को समय पर दवा उपलब्ध हो इसके लिए 27 जिलों में औषधि भंडार केंद्र बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। बिहार सरकार द्वारा इस योजना को स्वीकृति दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि पहले चरण में बीस जिलों में औषधि भंडार केंद्र बनाए जाएंगे। बता दें कि एक औषधि भंडार केंद्र के निर्माण पर 85 लाख रुपए खर्च होंगे। इन औषधि केंद्रों का निर्माण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत दो वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए आवंटित राशि से किया जाएगा। अभी इस योजना में कुल 17 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। बता दें कि यह

## पुलिस ने नक्सली साजिश को किया नाकाम पचरुखिया जंगल से तीन किलो के दो आईडी बरामद

**AGENCY AURANGABAD** :

गुरुवार को औरंगाबाद पुलिस ने एक बार फिर नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसे समय रहते विफल कर दिया गया। पुलिस ने अति नक्सल प्रभावित मदनपुर प्रखंड के पचरुखिया के जंगल से तीन-तीन किलो वजन के दो प्रेशर आईडी बरामद किए हैं।

बरामदगी से संबंधित जानकारी सद्र एसडीपीओ 2 अमित कुमार ने साझा की है। एसडीपीओ ने बताया कि नक्सलियों के गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक स्वप्ना जी मेश्राम के निर्देश पर उनके और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (कोवरा-205) वाहिनी के सहायक समादेशी चिन्तो कुमार के नेतृत्व में मदनपुर थाना



जंगल से बरामद आईडी।

क्षेत्र के पचरुखिया जंगल और आस-पास के कुछ प्वाइंट को निरन्तर कर सच अभियान चलाया जा रहा था। सच अभियान के दौरान पचरुखिया एफओबी से दक्षिण-पश्चिम दिशा में जंगल के प्वाइंट पी-11 से दोपहर 12 बजे तीन किलो का प्रेशर आईडी और फिर कुछ क्षण बाद 12:38 बजे के करीब दूसरा प्रेशर आईडी बरामद किया गया। बरामद सभी आईडी को

यथास्थान पर ही निष्क्रिय कर ध्वस्त कर दिया गया। एसडीपीओ ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद नक्सलियों का मनोबल और गतिविधियाँ ध्वस्त हुई हैं। इस कार्रवाई में मदनपुर थाना की पुलिस के साथ-साथ सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे। मदनपुर प्रखंड का दक्षिणी इलाका जंगल और पहाड़ों से घिरे होने के कारण भाकपा माओवादी संगठन का सेफ

## मोतिहारी में दिखा तेंदुआ, दहशत में ग्रामीण, तलाश में जुटा वन विभाग

**AGENCY MOTIHARI** :

बिहार के मोतिहारी में खूंखार का डर लोगों को सता रहा है। जिले के संग्रामपुर प्रखंड के मधुवनी पंचायत में तेंदुआ देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत है। सूचना मिलने के बाद से मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए के पगमार्ग से उसकी तलाश में जुट गई है। डर के मारे ग्रामीण घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं, वो रातभर लाठी-डंडा लेकर जाग रहे हैं।

बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर आई वन विभाग की टीम को अभी तक तेंदुआ नजर नहीं आया है। वहीं घास पर पगमार्क होने के कारण जानवर की पहचान नहीं हो पा रही है। हालांकि ग्रामीणों को आशंका है कि तेंदुआ गांव में ही कहीं छुपा है। मिली जानकारी के अनुसार पहली बार मंगलवार की रात मधुवनी पंचायत के वार्ड नंबर तीन के दरियापुर गांव के रहने



वाले मोनाफ खान के बरामदे पर तेंदुए को देखा गया था। मोनाफ खान के घर के बाहर तेंदुए को देख लोग दहशत में आ गए। वहीं घरवालों ने खुद को घर के अंदर कैद कर लिया और शोर मचाने लगे। एक ग्रामीण ने बताया कि करीब रात के 10 से 11 बजे पास की बांस की झाड़ियों में लोगों ने तेंदुए को देखा था। ग्रामीणों ने लाठी डंडा लेकर उसे भगाने की कोशिश भी की। लेकिन वो वहीं

छुप गया। उसके बाद सुबह जब हम लोगों ने देखा तो वो वहाँ पर नहीं था। बुधवार को भी एक ग्रामीण महिला ने तेंदुए के देखे जाने का दावा किया, जिसके बाद से ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है। मोतिहारी वन प्रमंडल के डीएफओ राजकुमार शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों ने एक तस्वीर भेजी है, जो धुंधली है। उस तस्वीर में जानवर की पहचान नहीं हो पा रही है।

## ईडी का छापा, 90 लाख कैश और चांदी की ईंटें बरामद

**AGENCY PATNA** :

बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बड़ी कामयाबी मिली है। इस केस में हालिया छापेमारी के दौरान 90 लाख रुपये कैश और 13 किलोग्राम चांदी की ईंटें जब्त की गईं। ईडी के आधिकारिक सूत्रों से यह जानकारी मिली है।

बता दें कि ईडी ने इसी हफ्ते दिल्ली के दो ठिकानों के अलावा कोलकाता और मुंबई में कुछ जगहों पर छापेमारी की थी। सूत्रों ने बताया कि बिहार ऊर्जा निगम में प्रधान सचिव रह चुके अधिकारी संजीव हंस के कुछ अर्थात् पुराने सहयोगियों के ठिकानों पर दो दिनों तक छापे

● गुलाब यादव और संजीव हंस केस में मिली बड़ी कामयाबी



गुलाब यादव संजीव हंस

मारे गए। ताजा छापेमारी में करीब 90 लाख रुपये नकद और 13 किलोग्राम चांदी जब्त की गईं। केन्द्रीय एजेंसी ने इस मामले में पहली बार जुलाई में छापा मारा था। उस समय ईडी द्वारा एक दर्जन से अधिक महंगी घड़ियाँ, लगभग एक किलोग्राम सोने के आभूषण और कुछ निवेश संबंधी कागजात जब्त किए गए थे। इसके बाद बिहार सरकार द्वारा उन्हें प्रधान सचिव के पद से हटा दिया गया था।

## भ्रष्टाचार में संलिप्त है डबल इंजन की सरकार : तेजस्वी

**AGENCY DARBHANGA** :

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता जन संवाद यात्रा के क्रम में तीसरे दिन दरभंगा पहुंचकर प्रेक्षागृह में पांच विधानसभा के कार्यकर्ताओं के सारथे बैठक की। बैठक से पहले तेजस्वी यादव ने परिचय में पत्रकारों से बात करते हुए एनडीए सरकार पर जमकर हमला किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार 20 साल से लगातार विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते आ रहे हैं। लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि अब तो केंद्र सरकार का भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया है। वहीं तेजस्वी ने बिहार के



उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से वो उपमुख्यमंत्री बने हैं, एक काम बता दें, जो उनके द्वारा किया गया हो। सिर्फ गाड़ी और सिक्वोरिटी लेकर जनता के पैसे से घूमते हैं। घूमना कोई काम है क्या? हम से ज्यादा जनता के बीच में रहे हैं? रात दिन हमलोगों ने सड़कों पर बिताए हैं। क्या वो हम से ज्यादा जनसभा किए हैं? ये

घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या

**CHAMPARAN** : बिहार के बगहा में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। रामनगर थाना क्षेत्र के चुड़िहरवा गांव में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसके पटीदारों पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस मामले की तफतीश में जुटी हुई है। परिजनों के मुताबिक महिला घर में सो रही थी। इसी दौरान देर रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब महिला के जेट के बेटों ने आकर गोली मार दी। महिला के पुत्रों ने बताया कि रास्ते को लेकर पटीदारों से विवाद चल रहा था। इसी क्रम में पंचायती के दौरान विवाद को सुलझा लिया गया था। मृतका की शिनाख्त सुनारपति देवी के रूप में हुई है। उसके पति का नाम सरयू राय है। आरोप है कि सरयू के भाई संजय राय के बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है।

किसान से अपराधियों ने मांगी 20 लाख की रंगदारी

**BHAGALPUR** : घर निर्माण कर रहे जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जमनी गांव निवासी सह राजद प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता से अपराधियों ने 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी है। अपराधी बिजल पासवान, संजय पासवान, लालू पासवान, चंदन पासवान, पंचा पासवान और अजय पासवान ने शंकर प्रसाद गुप्ता से रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मार देने का धमकी दिया है। जिसको लेकर शंकर प्रसाद गुप्ता ने गुरुवार को वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर आवेदन दिया है। शंकर गुप्ता ने कहा कि उक्त लोगों के द्वारा मुझे कई बार फोन के माध्यम से जान के मरने की धमकी दी गई थी। जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। इन अपराधियों के द्वारा जमनी गांव में गांजा और देसी शराब बेचा जाता है। जिस वजह से उनके पास असामाजिक तत्व के लोगों का आना-जाना लगा रहता है। मैंने इन सब के बचाव के लिए अपने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया था।

## सारण में मुख्यमंत्री ने दी कई योजनाओं की सौगात



छात्रावास का उद्घाटन करते सीएम नीतीश कुमार।

**AGENCY SARAN** : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रख्यात समाजवादी और जननायक नेता कपूर्वी ठाकुर के साथ अपनी तस्वीर देखकर मुस्कुराने लगे। दरअसल, गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिलेवासियों को कई योजनाओं की सौगात देने सारण पहुंचे थे।

उनका कार्यक्रम मद्दौरा और अमनौर के अपहर में था। उन्होंने मद्दौरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में नवनिर्मित 300-300 क्षमता के 2 छात्रावासों और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अवस्थित सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के आमन को लेकर

आज मद्दौरा में सुरक्षा व्यवस्था काफी चौकस रही। वहीं मुख्यमंत्री का काफिला अमनौर पहुंचा। उन्होंने वहां के अमृत सरोवर का अवलोकन किया और वहां पर पौधरोपण भी किया। वहीं मद्दौरा पहुंचने पर सारण के जिला अधिकारी अमन समीर के द्वारा मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट किया गया। वहां भी सीएम नीतीश कुमार कई योजनाओं का भी आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री आज सारण में एक से डेढ़ घंटे की अवधि में रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई विकास के कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सारण से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी, छपरा विधायक डॉ सीएम गुला मौजूद थे।

## नर्स ने डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट काटा क्लीनिक में कर रहा था रेप की कोशिश

**AGENCY SAMASTIPUR** :

बिहार के समस्तीपुर में एक डॉक्टर ने अपने दो सहयोगियों के साथ मिलकर एक नर्स के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता के मुताबिक डॉक्टर शराब के नशे में धुत था। क्लीनिक में उसके साथ ज्यदाती होती उससे पहले ही उसने डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट, क्लीनिक में रखे ब्लेड से, काट दिया और जान बचाकर बाहर निकल गई। डॉक्टर के दो सहयोगी उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन वह एक मकई के खेत में जाकर छिप गई।

यह मामला मुसरीघरारी थाना इलाके के फिजियोथेरेपी नर्सिंग होम के डॉक्टर की क्लीनिक का है। डीएसपी संजय कुमार पांडेय ने वारदात के शिकायत मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शराब में धुत डॉक्टर और उसके दो सहयोगी नर्स के साथ जबरदस्ती की कोशिश कर रहे



थे। विरोध में नर्स ने आरोपी डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट ब्लेड से काट दिया और जान बचाकर भागी और बाहर निकलकर खेत के अंदर छिपकर 'डायल 112' को कॉल करके बुलाया। पीड़ित नर्स ने बताया कि घटना के वक्त डॉक्टर ने क्लीनिक में लगे सीसीटीवी कैमरा को बंद कर दिया था। क्लीनिक को अंदर से लॉक कर दिया और तीनों टूट पड़े। जान बचाने के लिए उसने

ब्लेड से आरोपी का प्राइवेट पार्ट काट दिया और क्लीनिक का ताला खोलकर फरार हो गई। मकई के खेत में जाकर डायल 112 को बुलाया। इधर आवेदन के आधार पर मुसरीघरारी थाने में मामला दर्ज कराया है। डीएसपी ने बताया कि आरोपी डॉक्टर तेहरा का रहने वाला है जबकि दोनों सहयोगी समस्तीपुर के ही रहने वाले हैं। तीनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।

## चार घोटाले की उपज हैं तेजस्वी : बिजेन्द्र यादव

**AGENCY PATNA** :

बिहार की सियासत में इन दिनों जुवानों जंग का दौर जारी है। आरजेडी कई मुद्दों को लेकर लगातार सरकार और सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है तो जेडीयू के नेता भी आरजेडी पर पलटवार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी के बाद ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी को कोई ज्ञान नहीं है। तेजस्वी यादव पर तीखा हमला करते हुए बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने उन्हें चोरे घोटे की उपज बताया। बिजेन्द्र यादव ने कहा कि जब तेजस्वी पैदा हुए थे, बिहार पहला राज्य है जहां खजाने से ही पैसे की लूट हो गयी थी। आज



तक इतिहास नहीं है दुनिया में कहीं। बिहार में अपराध बढ़ने के विपक्ष के आरोप पर बिजेन्द्र यादव ने कहा कि बिहार में अपराधिक घटनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। समाज में राम हैं तो रावण भी है। कृष्ण हैं तो कंस भी है। इसीलिए तो कानून बना है। बिजेन्द्र यादव ने नीतीश कुमार के महापबंधन में शामिल होने की चर्चा को बकवास बताया।

## विस चुनाव से पूर्व जदयू ने की प्रकोष्ठों में नए अध्यक्ष व प्रभारियों की नियुक्ति

**AGENCY PATNA** :

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दल सक्रिय होने के सभी राजनीतिक दल सक्रिय होने लगे हैं। जदयू ने प्रदेश की नई टीम के गठन के बाद अब विभिन्न प्रकोष्ठों में नए अध्यक्ष और प्रभारी की नियुक्ति की है। जदयू ने राज्य की विधानसभा प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। इस संबंध में गुरुवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने पत्र जारी कर दिया है।



मोड में आते जा रहे हैं। एक तरफ जहां आरजेडी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना शुरू कर दिया है तो वहीं जेडीयू भी चुनाव को लेकर एक्टिव हो गई है। पूर्व सांसद चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मनीष कुमार को युवा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष, जबकि वशिष्ठ सिंह को प्रभारी बनाया गया है। रामेश्याम को छात्र जदयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। विधान परिषद वीरेंद्र नारायण यादव को छात्र प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को बनाया गया है, जबकि मेजर इकबाल हैदर

प्रभारी होंगे। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की तरफ से जारी लिस्ट में राजेश त्यागी को अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व विधायक अरुण मांडी इसके प्रभारी होंगे। सुरेंद्र उरांव को अनुसूचित जनजाति का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मनोज कुमार को किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं डॉक्टर एनल वी सिंह चित्तिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। धनंजी प्रसाद व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जबकि विधान परिषद ललन सराफ को प्रभारी का दायित्व दिया गया है। राम चरित्र प्रसाद को तकनीकी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सुनील कुमार को शिक्षा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष, जबकि नीतीश पटेल को मीडिया प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया है।

# लखनऊ को पहला अटल आवासीय विद्यालय

सीएम योगी बोले- 'बांटने का एजेंडा चलाने वाले लोग गरीबों की शिक्षा जरूरत को नहीं समझेंगे'

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अटल आवासीय विद्यालयों के नए शैक्षिक सत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने लखनऊ में पहले अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। यह विद्यालय मोहनलालगंज के सिटौली कला गांव में बनाया गया है। उद्घाटन से पहले उन्होंने विद्यालय परिसर में छात्रों द्वारा लगाई प्रदर्शनी देखी और एक छात्र की बुकलेट पर हस्ताक्षर भी किए। सीएम योगी ने सभी 18 मंडलों में एक साथ शैक्षणिक सत्र 2024-25 का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर सीएम योगी इन विद्यालयों के मेधावी छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए। नए प्रवेश लेने वाले छात्रों को स्कूल बैग वितरित किया। कॉपी-कलम सहित कई तरह के गिफ्ट बच्चों को बांटे गए। सीएम योगी स्कूल के छात्रों की प्रदर्शनी देखी और प्रतिभा की तारीफ की। उद्घाटन



के बाद सीएम योगी ने कहा कि 'प्रदेश के 18 मंडलीय मुख्यालयों में अटल आवासीय विद्यालयों को संचालित किया जा रहा है। इसमें मेरठ, मिर्जापुर, वाराणसी, गोरखपुर, बांदा, आजमगढ़ सहित 18 मंडल शामिल हैं।' सीएम योगी ने कहा, कि 'व्यक्ति हो या समाज, बिना शिक्षा के सशक्त परिवार, राज्य या राष्ट्र की परिकल्पना साकार नहीं हो सकती। जब समाज

शिक्षित होगा। समाज के हर तबके के बच्चे को उसकी जाति, धर्म पूछे बिना उसका अधिकार मिलेगा, तब हम सही मायने में सशक्त होंगे।' 'यह अटल आवासीय विद्यालय शिक्षा के मॉडल के रूप में आपके सामने पेश किया गया है। मैंने क्लासरूम में बच्चों के साथ इंटरैक्शन किया था। इनकी क्या प्रतिभा है। प्रतिभा कोई जाति या धर्म नहीं देखती।' सीएम योगी ने कहा-



'जाति के नाम पर लड़ने वाले, सामाजिक न्याय के नाम पर समाज में सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके, देश के दुश्मनों को प्रोत्साहित करने वाले लोग, गरीबी के दंश को क्या समझ पाएंगे।' 'जिन्होंने शोषण किया, अराजकता फैलाई, जिन्होंने गरीबी नहीं देखी, उनसे ये उम्मीद करना कि वे आपकी पीड़ा समझेंगे, भूल होंगी...इनके पास पीड़ा समझने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि

इनके अलग एजेंडे हैं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटना ही इनका एकमात्र ध्येय है।' 'गरीब अशिक्षित रहेगा तो, इनकी वैमनस्यता चलीती रहेगी। सरकारें पहले भी थीं, लेकिन श्रमिकों, गरीबों के लिए कार्य क्यों नहीं हो पाया? जाति की राजनीति करने वाले लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा।' कार्यक्रम की शुरुआत में डिप्टी सीएम ब्रजेश

पाठक ने कहा कि बच्चे जो आज बैठे हैं, वे कल के भविष्य हैं। जो बच्चे यहां से निकलेंगे वो पूरे देश-विदेश के एजमा को क्रेक कर लेंगे। 2017 से पहले यूपी का हाल जाति धर्म में बंटवारा होता था, बहन-बेटी के साथ गलत होता था। अब यूपी बदल गया है। जो काम मैं बचपन में नहीं कर पाया, जो का मुख्यमंत्री जी नहीं कर पाए, वो हम बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाकर करेंगे। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन अब गरीब बच्चों को भी मिलेगी। इस स्कूल के माध्यम से सबका विकास होगा। अटल आवासीय विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सौभाग्य कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है। इसका शिलान्यास सीएम योगी द्वारा 24 जनवरी 2020 को किया गया था। इसका माध्यम से प्रदेश में मंडल स्तर पर निशुल्क आवासीय सुविधाओं से युक्त विद्यालयों का निर्माण कराया गया है।

## संक्षिप्त डायरी

नयी दिशा द्वारा कसया पीडब्ल्यूडी परिसर हुआ आयोजन



कुशीनगर। नयी दिशा पर्यावरण सेवा संस्थान द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाये जा रहे पौधरोपण संग जन्मोत्सव अभियान के क्रम में फाजिलनगर विकास खण्ड के प्राथमिक विद्यालय डिग्री टोला की प्रधानाध्यापिका कुसुम द्विवेदी ने गुरुवार को जन्मदिन के अवसर पर कसया पीडब्ल्यूडी परिसर में प्रातः काल पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। श्रीमती द्विवेदी ने कहा कि प्रदूषण मुक्त हरा भरा मनोरम वातावरण बनाने के लिए हम सबको अधिकधिक पौधे लगाने व बचाने की जरूरत है। इस अवसर पर अरती दुबे, ममता शर्मा, मधुलिका, चंद्रभान, चंद्र प्रसाद, भोम, गोविंद यादव, दिलीप शर्मा, चौधरी यादव, नयी दिशा सचिव डॉ० हरिओम मिश्र आदि उपस्थित रहे।

धन्यवाद:विधायक पीएन पाठक के प्रस्ताव पर दस लोगों को मिला सोलर लाइट



कसया, कुशीनगर। कुशीनगर विधानसभा के विधायक पीएन पाठक के प्रस्ताव पर बाबु जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना अन्तर्गत स्थापित सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्र चिरगोड़ा धूसी में दस लोगों वितरित किया गया। इस स्ट्रीट लाइट से गांव में उजाला मिलेगा संयंत्र पाने वाले सभी लोगों ने अपने जन नेता विधायक पीएन पाठक को दिल से धन्यवाद दिया। बता दें कि कुशीनगर विधायक पीएन पाठक द्वारा पूरे विधान सभा में विकास को गति प्रदान करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में चिरगोड़ा धूसी में दस लोगों को विधायक पीएन पाठक के प्रस्ताव पर सोलर स्ट्रीट लाइट का संयंत्र वितरण किया गया। लोगों को सम्बोधित करते हुए भाजपा बुध अध्यक्ष चन्द्रदेव पटेल समाजिक कार्यकर्ता रमेश कुमार तिवारी, ग्राम प्रधान डिमल पांडेय, राधेश्याम प्रसाद, आशुतोष कुमार तिवारी, अजय तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार गांव के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजना चला रही है। जिससे गांव का विकास तेजी से बढ़ रहा है विधायक पीएन पाठक द्वारा पूरे विधान सभा का विकास का गति बहुत तेजी से बढ़ रहा है चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इस अवसर पर दयाशंकर राजौरा, राहुल पांडेय, इन्तजाय अहमद, अलीशेर, कोलाई शर्मा आदि मौजूद रहे।

लखनऊ में निकाला गया चुप ताजिया का जुलूस



लखनऊ। चौक स्थित इमाम बाड़ा नाजिम साहब से गुरुवार को चुप ताजिया का जुलूस निकाला गया। ये जुलूस मोहरम के अंतिम दिन निकलता है। दो महीने 8 दिन तक चले गम के सिलसिले का आज चुप ताजिया के साथ समापन हो गया। कर्बला में यजीदी फौज द्वारा बेरहमी से शहीद किए गए नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद में निकाले गए जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। परंपरागत तरीके से निकाला गया जुलूस अकबरीगेट, नखड़ा, बिल्लौचपुरा चौराहे से मुड़कर गिरधारी सिंह इंटर कॉलेज मंसूर नगर होता हुआ रौजा-ए-काजमेन में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। जुलूस से पहले इमाम बाड़ा नाजिम साहब में मौलाना यासूब अन्बास ने मजलिस पढ़ी। मौलाना ने कहा कि इराक के कर्बला जैसी जंग दुनिया में दोबारा कभी नहीं हुई। यह पहली और आखिरी जंग थी, जिसमें 6 महीने के मासूम बच्चे भी शामिल हुए। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे ने इस जंग को ईसानियत कि खातिर लड़े थे। 2 महीना 8 दिन तक हमने लगातार जुलूस और मजलिस के माध्यम से हजरत इमाम हुसैन को याद किया। आज मोहरम के गम का आखिरी दिन है। लखनऊ इमामबाड़ा से निकाले गए इस अलविदाई चुप जुलूस में भारी संख्या में अकीदतमंद, अजादाद शामिल हुए। मरसिया पढ़कर अकीदतमंदों ने इमाम हुसैन और उनके साथियों याद किया। चुप जुलूस में शामिल बड़ी संख्या में लोग नम आंखों से हजरत इमाम हुसैन को याद कर रहे थे। जुलूस में शामिल ताजिया को अकीदत के साथ लोग चूमते हुए नजर आए। जुलूस में शामिल अकीदतमंद सज्जाद ने कहा कि आज हम लोग नम आंखों के साथ मोहरम को विदा कर रहे हैं। 2 महीना 8 दिन शिया समुदाय के लिए बहुत विशेष होता है। इन दिनों में हम अधिक से अधिक काले कपड़े पहनते हैं। 2 महीना 8 दिन तक गम में डूबे रहते हैं और किसी प्रकार की खुशी नहीं मनाई जाती है। हम लोगों का यही प्रयास है कि कर्बला के मैदान से इमाम हुसैन ने जो संदेश दिया उसे अपने दिल में लागू करें। मोहरम के दौरान बड़ी मात्रा में भंडारा बांटा जाता है। सबील (प्याऊ) लगाई जाती है। चौक के किटोरिया स्ट्रीट से शुरू हुए जुलूस का समापन सआदत गंज के रौजा-ए-काजमेन में हुआ। जुलूस में शामिल लोगों ने 3 किलोमीटर पैदल यात्रा तय की।

यूपी में विराट कोहली खोलने जा रहे अपना पहला जिम

गोरखपुर। अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखने वालों के लिए खुशखबरी है। भारतीय क्रिकेटर स्टार विराट कोहली गोरखपुर के इंटरनेशनल वॉटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अपना जिम ब्रांड 'वॉल्ट बाई विराट कोहली' खोलने जा रहे हैं। यह यूपी का पहला और देश का 11वां जिम है। अक्टूबर में इसका उद्घाटन होगा। यह जिम शहरवासियों के लिए फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन साबित होने वाला है। 5000 स्क्वायर फीट में फैला यह हाई-टेक जिम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर तैयार किया गया है।

निःशुल्क योग प्रशिक्षण युवाओं के स्वस्थ के लिए वरदान: नागेंद्र गुप्ता

कुशीनगर। हरिओम योग सेवा संस्था का तृतीय वर्षगांठ संकल्प दिवस के रूप में प्रशिक्षु छात्रों व भाई बहनों द्वारा श्री कृष्ण भगवान का आरती, पूजन व फीता काटकर मनाया। इसी क्रम में संरक्षक बिजेन्द्र प्रताप सिंह का 47 वें जन्मोत्सव केक काट कर भूषाधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान नागेंद्र गुप्ता ने कहा कि

नेता अरुण मिश्रा ने कहा कि निक्की बहन का समाज में सेवा समर्पण से क्षेत्र लाभित हो रहा है। इस अवसर पर अधितियों का आरती, पूजन व फीता काटकर मनाया। इसी क्रम में संरक्षक बिजेन्द्र प्रताप सिंह का 47 वें जन्मोत्सव केक काट कर भूषाधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान नागेंद्र गुप्ता ने कहा कि

निःशुल्क योग प्रशिक्षण युवाओं के स्वस्थ लिए वरदान साबित हो रहा है सामाजिक, पारिवारिक व शारीरिक चेतना भी जाग्रत हो रही है। विशिष्ट अतिथि भाजपा डॉक्टर शुभकर शुक्ला विधानसभा संयोजक मीडिया प्रभारी ने कहा कि सीमित संसाधनों में ही बहन निक्की मद्देशिया द्वारा लगातार तीन वर्ष से नारी उत्थान व स्वस्थ के लिए एन जागरण करने के बचाई देता है। ग्राम प्रधान नागेंद्र गुप्ता व भाजपा

## सुभासपा के युवा मोर्चा की बैठक में पार्टी की मजबूती पर हुई चर्चा

कसया, कुशीनगर। फाजिलनगर ब्लाक सभागार में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की युवा मोर्चा कार्यकर्ता बैठक की आयोजन की गई। जिसमें पार्टी की मजबूती पर चर्चा करते हुए सदस्यता अभियान पर जोर दिया गया। साथ ही पार्टी की कार्यक्रम और नीतियों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार राव ने किया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक व पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामानंद बौद्ध ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी के रीढ़ हैं इनके बदौलत ही बड़ा से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। आज कार्यकर्ताओं के बदौलत ही प्रदेश को तीसरी बड़ी पार्टी बनकर छः विधायक विधानसभा में पहुंचे हैं। विशिष्ट अतिथि प्रदेश सचिव ओम प्रकाश राजभर ने कहा प्रदेश ही नहीं देश



की जनता आज पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर ज्यदा से ज्यदा की संख्या में सदस्यता ले रहे हैं आने वाले समय में यह पार्टी अपना एक अलग पहचान बनाएगी। विशिष्ट अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष गुड्डू दुबे ने कहा कि बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है। प्रदेश प्रवक्ता विजय कुमार राव ने कहा की आज एनडीए के नेतृत्व वाली केंद्र और प्रदेश की सरकार देश, प्रदेश की

प्रगति और खुशहाली के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। मंडल उपाध्यक्ष गुड्डू राजभर, पूर्व मंडल अध्यक्ष धुवदेव राजभर, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष दिलावर राजभर, पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल राजभर, राजू राजभर, विधानसभा प्रभारी प्रिंस राजभर, राजेश राजभर, चंदन राजभर, विजेंद्र राजभर, विश्राम राजभर आदि लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन संतोष राजभर ने किया तथा पार्टी के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार राव

ने पार्टी की नीतियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए आए सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किए। इस दौरान मीडिया प्रभारी रामसेवक राजभर व पप्पू राजभर, राकेश राजभर, रमेश सिंह, जितेंद्र प्रधान, सूचित राजभर, अनुराग सिंह, अतुल पाण्डेय, ओम मिश्रा, अरविंद राजभर, पारस राजभर, उमेश राजभर, धीरज, गोलू, राजकुमार राजभर, विजय यादव सहित देरों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

## 15672 को दिलाई गई भाजपा की सदस्यता

कुशीनगर। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान-2024 के अंतर्गत 11 से 17 सितम्बर तक चलाए जा रहे महा जनसंपर्क अभियान के तहत गुरुवार को भाजपा के जनप्रतिनिधि एवं प्रदेश से बृथस्तर के सभी कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को केन्द्र-प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताकर 88 00 00 2024 पर मिस्ट्रकॉल कराकर भाजपा का सदस्य बनाया गया। सदस्यता अभियान के जिला सह संयोजक प्रवीण मिश्र गुंजन के हवाले से जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनन्द ने बताया कि सदस्यता अभियान जरिए पार्टी के जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रत्येक मतदाता तक पहुंचकर, भाजपा परिवार से जोड़ने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। महा जनसम्पर्क अभियान के जरिए पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा



विगत दो दिनों में कुशीनगर जिला में 15672 प्राथमिक सदस्य बनाए गए हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री दीपक कुमार के नेतृत्व में रामकोला विधानसभा क्षेत्र में बौद्धवार मण्डल के मठिया अनुसूचित बस्ती और रामकोला मण्डल के उर्दहां में विशेष सम्पर्क कर 496 लोगों को भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनाया गया। इस अवसर पर

अनुसूचित जाति मोर्चा क्षेत्रीय महामंत्री दीपक कुमार ने कहा कि देशविरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गाँधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। राहुल गाँधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कह कर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। विदेशी मंचों पर भारत

## गोरखपुर नगर निगम को मिला 'प्रेज पुरस्कार'



गोरखपुर। नगर निगम को पीएम स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं को ऋण वितरण में प्रदेश में पहले स्थान पर आने के कारण 'प्रेज पुरस्कार 2023-24' से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ के स्थानीय निकाय निदेशालय में आयोजित एक समारोह में नगर निगम के प्रतिनिधियों, अपर नगर आयुक्त निरंकर सिंह और डूडा के परियोजना अधिकारी विकास सिंह को सौंपा। नगर निगम के अनुसार,

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 'उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम' विषय पर 'परफॉर्मेंस रिकॉगनिशन फार एक्ससेट टू फाइनेंशियल इंकलूजन एंड स्ट्रीट वेंचर इंगेजमेंट' (प्रेज 2023-24) पुरस्कारों की घोषणा की है। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य उन नगर निकायों और बैंकों को मान्यता देना है जिन्होंने पथ विक्रेताओं के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान किया है। गोरखपुर नगर निगम ने इस योजना के तहत सबसे अधिक पथ विक्रेताओं को ऋण प्रदान किया।

बस्ती में पानी टंकी पर चढ़ा दिव्यांग: पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग

बस्ती। लालगंज चौकी की पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए एक दिव्यांग बुधवार को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई न होने से खफा होकर वह कसया स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। लोगों ने जब दिव्यांग युवक को टंकी पर चढ़ देखा तो शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद आस-पास के लोग मौके पर जुट गए। इस बात की जानकारी किसी ने पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस युवक को समझाने बुझाने का प्रयास की, लेकिन काफी देर तक उसने नहीं सुनी, उसका कहना था कि जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा, पहले मुझे बताओ की पुलिस कर्मियों ने मुझे क्यों पीटा फिर नीचे उतरूंगा। थाना क्षेत्र के चौबाहा गांव निवासी दिव्यांग राकेश ने एस्प्री को दिए प्रार्थना पत्र



में कहा था कि स्कैप कारोबारी ने स्कैप का सामान रास्ते में बिखेर रखा था, जिसे उसने हटाने के लिए कहा था, इसी बात पर स्कैप कारोबारी से झगड़ा हुआ था, डायल 112 की पुलिस आई और उसे लेकर चौकी पर चली गई। आरोप लगाते हुए कहा कि वहां पहले से मौजूद स्कैप कारोबारी को सामने ही पुलिस ने गाली देते हुए उसे मारा पीटा था, उसने घटना का वीडियो भी बना लिया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। मामले को लेकर एसओ लालगंज सुनील गौड़ ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची थी, युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा गया है।

## जानलेवा हमले के दो शातिर अभियुक्तों को दस-दस साल की सजा, पांच-पांच हजार का हुआ जुमाना

संवाददाता हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में प्रासिक्यूनर की दमदार पैरवी के बाद स्पेशल जज, अपर जिला व सत्र हमीरपुर के विद्वान जज अनिल कुमार खरवार की अदालत ने 2009 में हुये जानलेवा हमले के मामले में दो शातिर अभियुक्तों को दस-दस साल की कड़ी सजा के साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुमाना भी लगाया गया है। गौरतलब है कि सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा पापा मार्ग पर एक अक्टूबर 2009 में हुये जानलेवा हमले के मामले में विद्वान स्पेशल जज अपर जिला व सत्र हमीरपुर अनिल कुमार खरवार की अदालत ने मामला से जुड़े दो अभियुक्तों को दस-दस साल की कड़ी सजा सुनाने के साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुमाना भी लगाया है, जबकि जुमाना अदा न करने की सूत्र में

अभियुक्तों को एक-एक साल की सजा और काटनी पड़ेगी। दरअसल सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा निवासी राज बहादुर सिंह पुत्र राजा भया ने 15 अक्टूबर 2009 में थाना सुमेरपुर में तहरीर देकर बताया था, कि जब वो 1 अक्टूबर को कानपुर से इलाज कराकर पैसंजर ट्रेन से लौटकर सुमेरपुर स्टेशन से गांव टेढ़ा मोटर साइकिल को खुद चलाकर मामा के लड़के सहित संतोष चौरसिया को बैठाकर गाँव जा रहे थे, तभी रात के 9.45 बजे जैसे ही पारा गाँव के आगे पहुंचे, उसी वख्त सड़क के किनारे चार अज्ञात व्यक्ति जो लाठी,डंडे और कुल्हाड़ी से लैस थे, तभी लाठी लिये व्यक्ति ने जान से मारने की नियत से उन पर हमला कर दिया, जिसके चलते बाईक थोड़ा आगे जाकर सड़क पर गिर गई,इसी बीच बांदा की तरफ से रोडवेज बस आ


गई और बस की रौशनी पडने से चारों अज्ञात भाग निकले। जबकि हमले से घायल मोटर साइकिल सवार का रीजेंसी में इलाज चल रहा है। जहाँ पर नाक की सर्जरी के साथ ही आंख का आपरेशन भी होना है। पीड़ित की तहरीर पर सुमेरपुर पुलिस ने चारों अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ मु०अं० सं-1655/2009-धारा-307, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जांच के दौरान सुमेरपुर के इमिलया थोक के बुड़यां खंगार पुत्र लोधी खंगार जबकि वरदानी चमार पुत्र भूरा चमार जबकि श्याम बिहारी पुत्र देवीदीन विश्वकर्मा सहित तीन मुकदमों में नामजद शातिर अभियुक्त बुड़यां खंगार सहित तीन मुकदमों में नामजद शातिर अभियुक्त वरदानी चमार को दस-दस साल की सख्त सजा सुनाने के साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुमाना भी लगाया गया है।

अभियुक्त श्याम बिहारी की मौत हो गई। मामले की लम्बी चली बहस के दौरान बचाव पक्ष के वकील निशेन्द सिंह ने काफी कोशिश की, कि अभियुक्तों को कम से कम सजा मिले, लेकिन तेज तर्रार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश गोस्वामी की दमदार दलीलों के आगे बचाव पक्ष के वकील की एक नहीं चली, जबकि गोस्वामी की दमदार दलीलों के चलते विद्वान स्पेशल जज अपर जिला व सत्र हमीरपुर अनिल खरवार की अदालत ने एक दर्जन से ऊपर मुकदमों में नामजद शातिर अभियुक्त बुड़यां खंगार सहित तीन मुकदमों में नामजद शातिर अभियुक्त वरदानी चमार को दस-दस साल की सख्त सजा सुनाने के साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुमाना भी लगाया गया है।



# उत्तम औषधि है काजू

मेवे का प्रयोग उत्तम औषधि के रूप में किया जाता है। क्योंकि मेवा स्वाद की नहीं बल्कि सेहत की दृष्टि से भी उत्तनी ही फायदेमंद है। काजू में मैग्नीशियम पाया जाता है जो उच्च रक्तचाप को कम करने में और दिल के दौररे को रोकने में मदद करता है। काजू कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी संतुलित रखता है। काजू में प्रोटीन की मात्रा काफी होती है जो बॉडी व हड्डियों को मजबूत बनाती है। चाहे मिठाई में काजू कतली हो या फिर दूसरे पकवानों में काजू का इस्तेमाल। काजू किसी भी आम डिश को शाही बना सकता है। अब जब काजू हमें इतना पसंद ही है तो इससे होने वाले लाभ के बारे में भी जान लेना चाहिए। काजू में प्रोटीन, खनिज लवण, लौह, फाइबर, फोलेट, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सेलेनियम, और तांबा का अच्छा स्रोत है। काजू का तेल, स्कर्वी मरसा और रिंगवर्म के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप प्रतिदिन 7-10 काजू का सेवन कर सकते हैं। काजू खाने से मसूड़ों और दांतों को स्वस्थ रखता है। काजू में मोनो सैचुरेटेड फैट होता है जो की दिल को स्वस्थ रखता है और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद करता है। काजू में एंटी ऑक्सिडेंट भी होते हैं जो कैंसर से बचाव करता है। काजू पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इससे भूख भी कहीं अधिक लगती है। आंतों में भरी गैस कम किया जा सकता है। काजू में पाए जानेवाले फाइटो-केमिकल कैसर और दूसरे बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। जिन महिलाओं को मेनोपॉज है उन्हें तनाव, स्ट्रेस होने एक आम सा समस्या है। उन महिलाओं को रोजाना एक काजू खाना चाहिए। काजू में पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। काजू में अधिक एनर्जी होती है और इसमें अधिक मात्रा में फाइबर होता है। इसलिए इसको खाने से शरीर का वजन संतुलित रहता है।



# खीरे में हैं सेहत व सौन्दर्य के अनगिनत गुण

खीरा सेहत के लिए काफी लाभकारी माना जाता है। ये सेहत के साथ-साथ सौंदर्य में बहुत फायदेमंद होता है। कम फेट व कैलोरी से भरपूर खीरे का सेवन आपको कई रोगों से बचाने में सहायता करता है। खीरे को आप कई तरह से खा सकते हैं, जैसे सलाद, जूस, सैंडवीच, या यही ही नमक छिड़क कर भी खा सकते हैं। खीरे के स्वास्थ्यवर्धक और सौन्दर्यवर्धक गुण दोनों अनगिनत होते हैं जैसे आयुर्वेद के अनुसार खीरा, पित्त, रक्त पित्त दूर करने वाला तथा रक्तविकार और मूत्र कच्छ नाशक रूचिकर फल है। खीरे के प्रयोग से पेट तथा जिगर की जलन शांत होती है। खीरे का नियमित सेवन से मासिक धर्म में होने वाली समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। खीरा एक ऐसी सब्जी है जिसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता। यह हृदय रोगी के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। एक अध्ययन के अनुसार खीरा में जो स्टैराल नाम का योगिक होता है वह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। खीरे में कैलोरी कम और फाइबर उच्च मात्रा में होता है। इसलिए मीठे डे में भूख लगने पर खीरा खाने से पेट देर तक भरा हुआ रहता है। आयुर्वेद के मुताबिक पेट में गर्मी होने के वजह से मुंह से बद्बू निकलता है, खीरा पेट को शीतलता प्रदान करने में मदद करता है।



# गर्भाशय में रसौली के लक्षण जान इस तरह करें घरेलू उपचार

बिगड़ते लाइफस्टाइल में महिलाओं में कई समस्याएं देखने को मिलती हैं, इन्हीं में से एक फाइब्रोइड यानी रसौली। फाइब्रोइड या रसौली की गांठें महिलाओं के गर्भाशय में या उसके आसपास बनती हैं। इस बीमारी के ज्यादातर लक्षण न होने के कारण महिलाओं को इसका पता नहीं चल पाता। एक शोध के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत महिलाएं रसौली का शिकार होती हैं। जैसे तो अक्सर यह समस्या 30 से 50 की उम्र में देखने को मिलती है लेकिन गलत खान-पान के कारण यह समस्या इससे कम उम्र में हो जाती है। मोटापे से ग्रस्त महिलाओं का एस्ट्रोजन हार्मोन स्तर ज्यादा होने के कारण उन्हें इसका खतरा सबसे अधिक होता है। इस बीमारी के कुछ सामान्य लक्षणों से इसकी पहचान करके आप इससे बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं फाइब्रोइड के लक्षण और इसे दूर करने के कुछ घरेलू उपाय।



## फाइब्रोइड या रसौली के लक्षण

पीरियड्स के दौरान भारी ब्लिडिंग  
अनियमित पीरियड्स  
पेट के नीचे के हिस्से में दर्द  
प्राइवेट पार्ट से खून आना  
कमजोरी महसूस होना  
प्राइवेट पार्ट से बद्बूदार डिस्चार्ज  
पेट में अचानक दर्द कब्ज  
पेशाब रुक-रुककर आना

## फाइब्रोइड या रसौली के घरेलू उपाय

### केस्टर ऑयल

दिन में 2 बार केस्टर ऑयल और अदरक के रस को मिला कर लें। सुबह और रात में सोने से पहले इसका सेवन इस बीमारी को दूर करता है।

### लहसुन

रसौली की समस्या होने पर खाली पेट रोज 1 लहसुन का सेवन करें। लगातार 2 महीने तक इसका सेवन इस समस्या को जड़ से खत्म कर देता है।

## बरडॉक रूट

यह जड़ी-बूटी एस्ट्रोजन को डिटॉक्स कर गर्भाशय फाइब्रोइड को कम करने में मदद करती है। एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण से भरपूर इस जड़ी-बूटी का सेवन इस समस्या और कैंसर के खतरे को कम करता है।

## सेब का सिरका

गर्म पानी के साथ सुबह शाम सेब का सिरका पीने से फाइब्रोइड की समस्या दूर होती है। इसके अलावा इसका सेवन फाइब्रोइड से होने वाले पेट दर्द को भी दूर करता है।

## चेस्टबेरी

यह हर्ब हार्मोन संतुलन करके एस्ट्रोजन के कम स्तर को बनाए रखने और सूजन को कम करने में मदद करता है। चेस्टबेरी हर्ब से बने मिश्रण की 25-30 बूंदों को दिन में दो से चार बार लेने से आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी।

## हल्दी

एंटीबैयोटिक गुणों से भरपूर हल्दी का सेवन शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकाल देता है। यह फाइब्रोइड की ग्रोथ को रोक कैंसर का खतरा कम करता है।



# दांतों में कैविटी की समस्या को इन तरीकों से करें दूर

सफेद और सुंदर दांत व्यक्ति की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। इनके बिना खाना खाने का कोई मजा नहीं आता। ऐसे में दांतों की सही देखभाल करना बहुत ही जरूरी होता है। कुछ लोग के गलत खान-पान या सही तरीके से दांतों की देखभाल न करने पर इनमें कैविटी यानी कीड़ा लग जाता है। यह किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। कई बार कीड़ा लगने से इतना दर्द होता है कि उसको सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए कई लोग दवाइयां और ट्रीटमेंट का सहारा भी लेते हैं। जो कि बहुत महंगा है। ऐसे में आप नैचुरल तरीके से भी दांतों में लगे कैविटी को आसानी से हटा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में।

## व्या है कैविटी

शक्करयुक्त खाद्य पदार्थों यानि बिस्किट्स, चॉकलेट्स, आलू, केला को खाने से मुंह में अम्ल बनने लगते हैं। इससे दांतों में धीरे-धीरे छोटे-छोटे से छिद्र बन जाते हैं। बाद में इन्हीं छिद्रों में कैविटी या कीड़ा लगत जाता है। इसके अलावा दांतों में संक्रमण होने पर भी कैविटी बन सकती है। इसका इलाज न करवाने पर दांतों के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। पीड़ित व्यक्ति को दांत खीने पड़ सकते हैं।

## ऐसे करे कैविटी से बचाव

मिठाई, कैंडी और चॉकलेट खाना कम करें। शक्करयुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें। ज्यादा मिठे फल न खाएं। सोडा न पीएं। इसमें 12 से 40 ग्राम चीनी की मात्रा होती है जो कि दांतों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती खाने के बाद कुल्ला करें। तेल और मसालेदार भोजन न खाएं। ज्यादा गर्म या ठंडा खाना खाने से बचें।

## कैविटी लगे दांतों का घरेलू इलाज

### नारियल या सूरजमुखी का तेल

कीड़ा लगे दांतों में तेल भरना सबसे बेस्ट घरेलू तकनीक है। इसके लिए आप नारियल तेल या सूरजमुखी का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच तेल को अपने मुंह में कम से कम 20 मिनट तक रखें। इसके बाद कुल्ला करें और ब्रश कर लें। कुछ दिनों तक ऐसा करने से आपको खुद ही फर्क

दिखाई देने लगेगा।

## प्लोराइड

यह एक तरह का प्राकृतिक खनिज पदार्थ है। यह दांतों में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होने देता है। दांतों को सुरक्षित रखने के लिए उस पानी का इस्तेमाल करें जिसमें प्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो। इसके साथ ही टूथ पेस्ट से रोजाना दो बार ब्रश करें।

## हींग

हींग का इस्तेमाल करने से भी दांतों के कीड़े खत्म हो जाते हैं। हींग के पाउडर को पानी में डालकर उबालें। इसके ठंडा होने पर इस पानी से कुल्ला करें। रोजाना ऐसा करने से दांतों के कीड़े खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही दांतों में होने वाले दर्द से भी छुटकारा मिलेगा।

## प्याज के बीज

दांतों के कीड़े को नष्ट करने के लिए प्याज के बीजों का इस्तेमाल करें। इसके बीजों को चबाने से कीड़े जल्द ही खत्म हो जाते हैं। आप चाहें तो प्याज को बारिक काट कर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कटोरे बारिक कटा प्याज डालकर उसमें इसमें थोड़ा-सा तेल डालकर कम आंच पर गर्म करें। इससे निकलने वाले धुंए को मुंह में लेने से भी कीड़े मर जाते हैं।



# खट्टे-मीठे बेर में समाएं कई गुण

आयुर्वेद के अनुसार बेर दिल की सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है। बेर खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियां होने की आशंका कम हो जाती है। बेर खाने से बार-बार प्यार लगने की शिकायत भी दूर होती है। खट्टे-मीठे बेर में पोटेशियम, कॉपर, आयरन, फॉस्फोरस और खनिज पदार्थ आदि भी होते हैं। इन सभी तत्वों से इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है और शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। गर्मियों में पौधे सुष्पतावस्था में प्रवेश कर जाते हैं व उस समय पत्तियां अपने आप ही झड़ जाती हैं तब पानी की आवश्यकता नहीं के बारबर होती है। इस तरह बेर अधिक तापमान तो सहन कर लेता है लेकिन शीत ऋतु में पड़ने वाले पाले के प्रति अति संवेदनशील होता है। क्योंकि इसमें कम पानी व सूखे से लड़ने की विशेष क्षमता होती है। जिस तरह नींबू और संतरे में विटामिन सी प्रचुर मात्रा पाई जाती है उसी तरह बेर में भी। बेर में अन्य फलों के मुकाबले विटामिन-सी और एंटीऑक्सिडेंट ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसके सेवन से त्वचा बढ़ती उम्र तक जवां बनी रहती है। इसमें विटामिन सी की मात्रा खट्टे फलों से 20 गुना तक अधिक होती है। बेर की गुठली को घिसकर आंखों में काजल की तरह लगाने से कर्नीनिका प्रवाह ठीक हो जाता है। आंखों से बहने वाला पानी भी बंद हो जाता है। बेर के पत्तों को पानी में काफी समय तक उबालकर काढ़ा बनाकर छानकर पीने से शरीर की बढ़ती चर्बी कंट्रोल हो जाती है। चेचक में बेर के पत्तों का रस भैंस के दूध के साथ रोगी को देने से रोग का वेग कम होता है। बेर में 6 ग्राम पत्तों के चूर्ण को 2ग्राम गुड़ के साथ मिलाकर रोगी को खिलाने से भी 2-3 दिन में चेचक खत्म होने लगता है।



# अमेरिका चीन की कई कंपनियों पर लगाएगा प्रतिबंध?

नई दिल्ली ।

यूएस की संसद में चीन के खिलाफ 28 बिल पेश किये जाएंगे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर राय देने के लिए बनाई गई संसद की सलेक्ट कमिटी ने इस संबंध में हाल ही में एक बयान जारी किया। अमेरिका की संसद में चीनी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसे चीनी सप्ताह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूरे सप्ताह चीन के खिलाफ संसद में चर्चा की जाएगी और अलग-अलग मुद्दों पर 28 बिल पेश किये जाएंगे। इसमें अधिकांश बिल चीन के व्यापार में बढ़ते वर्चस्व को दबाने के लिए हैं। बिल में ट्रेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल और फार्म ओनरशिप जैसे मुद्दे शामिल हैं। सलेक्ट कमिटी की प्रेस रिलीज के अनुसार कमिटी के एक वे रिश्



अधिकारी बायोसिक्वोर बिल से चीनी सप्ताह की शुरुआत करेंगे। इस बिल का मकसद अमेरिकी का लोगों का जेनेटिक डेटा बचाना और अमेरिकी कंपनियों को चीन की सरकार द्वारा समर्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों की लूट-खसोट वाली नीतियों से बचाना है। बायोसिक्वोर बिल के केंद्र में चीन की मिलिट्री कंपनी बीजीआई जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी वुवसी एपेटक और वुवसी बायोलॉजिक्स है। इन कंपनियों को कई फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अयोग्य करार दिया जा सकता है। अधिकारी ने कहा है कि इस बिल के साथ अमेरिका यह संदेश देना चाहता है कि चीन उनका जेनेटिक डेटा चुराता रहे और वह चुपचाप बैठे देखते रहें ऐसा नहीं होगा। सलेक्ट

## जेएसडब्ल्यू स्टील का कच्चा इस्पात उत्पादन अगस्त में बढ़कर 23.16 लाख टन

नई दिल्ली ।

सज्जन ज़िंदल की अगुवाई वाली जेएसडब्ल्यू स्टील का अगस्त में एकीकृत कच्चा इस्पात उत्पादन एक प्रतिशत बढ़कर 23.16 लाख टन हो गया है। पिछले साल इसी महीने में कंपनी का एकीकृत कच्चा इस्पात उत्पादन 22.86 लाख टन रहा था। जेएसडब्ल्यू ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि एकीकृत कच्चे इस्पात उत्पादन में सालाना आधार पर एक प्रतिशत



उत्पादन किया, जो अगस्त, 2023 में उत्पादित 0.71 लाख टन की तुलना में कम है। जेएसडब्ल्यू

की वृद्धि हुई है। कंपनी ने अपने भारतीय परिचालन से अगस्त में 22.49 लाख टन इस्पात का उत्पादन किया। यह पिछले वर्ष इसी महीने के 22.15 लाख टन से दो प्रतिशत अधिक है। जेएसडब्ल्यू स्टील ने कहा कि भारतीय परिचालन में मासिक कच्चे इस्पात का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में दो प्रतिशत अधिक रहा तथा क्षमता उपयोग 91 प्रतिशत रहा। जेएसडब्ल्यू स्टील अमेरिका-ओहियो ने समीक्षाधीन माह में 0.67 लाख टन इस्पात का

# जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स ने 10 लाख से कम में उतारी विंडसर ईवी

नई दिल्ली ।

पहले ही तगड़ी होड़ का मैदान बने देसी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार में जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने नए सिरे से ताल ठोक दी। कंपनी ने अपनी नई स्पॉटर्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) विंडसर 10 लाख रुपये से कम कीमत में उतार दी। अगर ग्राहक बैटरी को सर्विस के तौर पर अलग से लेते हैं तो उनके लिए विंडसर केवल 9.99 लाख रुपये में पड़ेगी। कीमत तय करने का कंपनी का यह नया मॉडल अपने बने ग्राहकों को बाद में बैटरी इस्तेमाल करने के लिए पैसा देना होगा, जो 3.5



रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लिया जाएगा। हालांकि कंपनी ने शुरूआती एक साल तक विंडसर के लिए बिल्कुल मुफ्त सार्वजनिक चार्जिंग रखी है। इसके साथ ही कंपनी इसके लिए तयशुदा बायबैक योजना लाई है और जब तक कार चलाई जाएगी तब तक बैटरी की वारंटी भी रहेगी। विंडसर 4.29 मीटर लंबी क्रॉसओवर एसयूवी है, जो टाटा मोटर्स द्वारा हाल ही में पेश की गई 4.31 मीटर लंबी कर्व ईवी की एसयूवी की तरह ही है। मगर कर्व ईवी की

## सरकार 15 साल पुराने वाहन को कबाड़ करने के प्रावधान में करेगी संशोधन

नई दिल्ली । सरकार स्कैप पॉलिसी में बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार 15 साल पुराने कारों को कबाड़ करने के अनिवार्य प्रावधान में संशोधन करने पर सरकार विचार कर रही है। जिससे अब पुरानी कार को कबाड़ में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाल ही में सरकार ने जानकारी दी थी कि सिर्फ उम्र के आधार पर वाहनों को हटाने के बजाय, कठोर प्रदूषण परीक्षण मानकों और विश्वसनीय फिटनेस जांच पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अभी उम्र के आधार पर गाड़ी को रोड से हटाया जा रहा है। इसका काफी विरोध हो रहा है। इसको देखते हुए अब नीति में बदलाव की योजना है। गौरतलब है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने की पॉलिसी इस वक्त केवल दिल्ली-एनसीआर में लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को कम करने और किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने के उद्देश्य से यह फैसला सुनाया था। कोर्ट के फैसले के मुताबिक 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर नहीं चल सकते हैं।



## पेटोएम के सीईओ शर्मा का प्लान..... जल्द ही मुनाफे की दिशा में आगे बढ़ना

मुंबई । फिनटेक कंपनी पेटोएम के संस्थापक और सीईओ विजय शंकर शर्मा ने गुरुवार को घोषणा की कि कंपनी अब अपने मुख्य व्यवसाय, यानी पेटेम्स और वित्तीय सेवाओं की क्रॉस-सेलिंग पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसका उद्देश्य जल्द ही मुनाफे की दिशा में आगे बढ़ना है। पेटोएम की सालाना आम बैटक में शर्मा ने कहा, पिछले छह माह ने हमें कई अहम सबक सिखाए हैं। अब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हमने एक 'ग्राहक पहले' दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे हमारा कारोबार हर नियम

# शेयर बाजार भारी तेजी के साथ बंद

सेसेक्स पहली बार 83,000, निफ्टी 25,000 के ऊपर निकला

मुंबई ।

घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को भारी उछाल के साथ बंद हुआ। बाजार में ये तेजी दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीददारी हावी रहने से आई है। अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों के बाद फेडरल रिजर्व के नीतिगत ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की संभावना मजबूत होने से भी बाजार में सकारात्मक माहौल रहा। इससे घरेलू इंडिटी में विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीदों से भी बाजार को बल मिला। आज कारोबार के दौरान एक समय 30 शेयरों वाला सेसेक्स 83,000 अंक से ऊपर पहुंच गया था पर बाद में फिसल गया। दिन भर के कारोबार के बाद सेसेक्स अंत में 1439.55 अंक करीब 1.77 फीसदी तेजी के साथ 82,962.71 अंक पर बंद हुआ। वहीं इसी प्रकार 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 25,000 अंक के

ऊपर निकल गया पर अंत में 470.45 अंक तकरीबन 1.89 फीसदी बढ़कर 25,388.90 अंक पर बंद हुआ। इस तेजी से बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 6.6 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 467.36 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। आज कारोबार के दौरान सेसेक्स के जिन शेयरों में तेजी रही उनमें भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस रहे। इसके साथ ही लासैन एंड टुबो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई के शेयरों में भी बढ़त रही। वहीं बैंक निफ्टी, ऑटो, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और तेल एवं गैस से जुड़े शेयरों में भी एक फीसदी तेजी आई। भारतीय एयरटेल का शेयर चार फीसदी तेजी के साथ आज सबसे ऊपर पहुंचा। पर पहुंच गया। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के शेयरों में एक फीसदी से ज्यादा



तेजी आई है जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर करीब दो फीसदी ऊपर आया। बाजार जानकारों के अनुसार अमेरिका में उपभोक्ता कीमतों में मामूली वृद्धि हुई लेकिन महंगाई में कुछ स्थिरता देखी। वहीं सीएमई फेडरल रिजर्व के अनुसार फेड द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की संभावना बढ़ी है। इससे इस घरेलू इंडिटी में विदेशी निवेश बढ़ने की संभावनाएं तेज हुई हैं। इसी कारण बाजार उछला है। इससे पहले आज सुबह वैश्विक बाजार से मजबूत संकेतों के बीच ही सेसेक्स और निफ्टी की बढ़त के साथ शुरूआत हुई। शुरूआती कारोबार में बीएसई सेसेक्स 81,840 पर आ गया, जो 317 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा, जबकि निफ्टी 50 ने 141 अंक की वृद्धि के साथ 25,059 पर कारोबार किया। वहीं दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो जापान का निफ्टी 225

## इलेक्ट्रिक कारों की कीमत 2 साल में पेट्रोल कारों के बराबर हो जाएगी: गडकरी

नई दिल्ली ।

राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत और इनकी बिजली से जुड़े मुद्दे उठा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि इलेक्ट्रिक कारों की कीमत अगले 2 साल में पेट्रोल कारों के बराबर हो जाएगी। आम आदमी के लिए कीमत सस्ती होने से इनकी बिजली में इजाफा होने लगेगा। नितिन गडकरी लंबे समय से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के पक्षधर रहे हैं। 64वें अन्वया वार्षिक सत्र में बोलते हुए, गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को आम जनता के लिए जाफायती बनाने के उपायों पर जोर दिया। गडकरी ने एक दशक पहले प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माताओं की ओर से उन्हें मिले संदेह के बारे में भी विचार व्यक्त किए। गडकरी ने कहा, दस साल पहले, जब मैं ईवी के लिए जोर दे रहा था, तो भारत में ऑटोमोबाइल दिग्गजों ने मुझे गंभीरता से नहीं लिया। अब, वे मुझसे कहते हैं कि शायद वे मौका चूक गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईवी पर उद्योग का नजरिया काफी बदल गया है। अपने संबोधन के दौरान, मंत्री ने ऑटोमोबाइल कंपनियों से अपने कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

## भारत में 2024 अल्काजार लॉन्च, शोरूम कीमत 14.99 लाख रुपये



नई दिल्ली ।

भारत में हुंडई मोटर इंडिया ने 2024 अल्काजार को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी बुकिंग पहले से ही शुरू कर दी है। इसकी शुरूआती एक्स-शोरूम कीमत 14.99 लाख रुपये तय की गई है। नई अल्काजार 70 से अधिक कनेक्टेड फीचर्स से लैस है। हुंडई अल्काजार कंपनी की 7 सीटर एसयूवी है। इसे दो इंजन ऑप्शन में लाया गया है। इतना ही नहीं गाड़ी के डोर के लॉक को आप अपने फोन या स्मार्टवॉच के जरिए अनलॉक कर सकते हैं। 2024 हुंडई अल्काजार को चार वैरिएंट एक्सबीक्यूव, प्रेस्टीज, प्लेटिनम और सिग्नेचर में पेश किया गया है। इस एसयूवी में पहले की तरह 6-सीटर वैरिएंट के साथ-साथ 7-सीटर विकल्प को जारी रखा गया है। नई अल्काजार के फंड में कंपनी के लोगों के साथ एक कनेक्टेड एलईडी डीआरएल सेटअप दिया गया है, जिसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। इसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आगे की सीटों के लिए 8-वे पावर एडजस्टमेंट भी दी गई है।

## रुपया बढ़त के साथ बंद

मुंबई । अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गुरुवार को भारतीय रुपया दो पैसे की बढ़त के साथ ही 83.97 रुपये पर बंद हुआ। आज सुबह घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख और विदेशी पूंजी प्रवाह के बीच भारतीय रुपया शुरूआती सत्र में सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दो पैसे बढ़कर 83.97 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सक्रिय हस्तक्षेप से रुपया एक निश्चित सीमा में रुपये ने शुरूआती कारोबार में सीमित दायरे में कारोबार किया। रुपया 83.97 प्रति डॉलर पर खुला और शुरूआती सौदों के बाद 83.97 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से दो पैसे की बढ़त है। रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक पैसा गिरकर 83.99 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को परखने वाला डॉलर सूचकांक 0.07 फीसदी की बढ़त के साथ 101.75 अंक पर रहा।



## बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को 3.2 लाख करोड़ की बोलियां मिली

नई दिल्ली । बजाज हाउसिंग फाइनेंस की शेयर बिक्री ने निवेशकों की रिकॉर्ड तोड़ मांग का सामना किया और 6,560 करोड़ रूप के आईपीओ की पेशकशी के लिए संघी बोली 3.2 लाख करोड़ रूप के पार निकल गई। आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में करीब 90 लाख आवेदन मिले, जिसने टाटा टेक्नोलॉजीज के पिछले रिकॉर्ड 73.5 लाख आवेदनों को पीछे छोड़ दिया। बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि यह कामयाबी 5.5 लाख करोड़ डॉलर वाले देसी इंडिटी बाजार की मजबूती व गहराई को रेखांकित करती है और बड़े पैमाने पर होने वाली शेयर बिक्री को सहारा देने की उसकी क्षमता भी बताती है। यह मौल का पत्थर वैश्विक वाहन दिग्गज हुंडई इंडिया के 25,000 करोड़ रूप के अनुमानित आईपीओ और सांफ्टबैंक समर्थित स्वर्गी के 10,000 करोड़ रूप के अनुमानित आईपीओ से पहले देखने को मिला है। बजाज हाउसिंग के आईपीओ को निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों से भारी मांग देखने को मिली और कुल मांग बिक्री पेशकशी के 67 गुने के पार चली गई। संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में 222 गुना आवेदन मिले जबकि एचएनआई श्रेणी में 10 लाख रूप तक और 10 लाख रूप से ज्यादा निवेश करने वाले निवेशकों के मामले में आवेदन क्रमशः 51 गुना व 31 गुना मिले। वैयक्तिक निवेशकों के मामले में बोली 60,000 करोड़ रूप के पार चली गई।

## कोष प्रबंधन मंच सेट्रिसिटी ने दो करोड़ डॉलर जुटाए

नई दिल्ली । डिजिटल कोष प्रबंधन मंच सेट्रिसिटी ने शुरूआती वित्तपोषण चरण में दो करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 168 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इससे कंपनी का मूल्यांकन 12.5 करोड़ डॉलर हो गया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि सेट्रिसिटी अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए ताजा पूंजी का उपयोग करने की योजना बना रही है। कंपनी अपनी प्रौद्योगिकी विकास टीम को 75 से बढ़ाकर 150 से अधिक विशेषज्ञों तक दुगुना करने की योजना बना रही है, जो जनरेटिव एआई-लेड मॉड्यूल, इंश्योर-टेक और ब्लॉकिंग-टेक मंच जैसे नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करेगी। जनवरी, 2022 में स्थापित गुरुग्राम स्थित सेट्रिसिटी ने सितंबर, 2022 में दो करोड़ डॉलर के मूल्यांकन पर 40 लाख डॉलर जुटाए।

## सेमी और आईईएसए ने भारत में पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने किया समझौता

नई दिल्ली । वैश्विक सेमीकंडक्टर निकाय सेमी और उसके समकक्ष आईईएसए ने भारत में इस उद्योग के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक समझौते की घोषणा की है। एक संयुक्त बयान में कहा गया कि समझौते के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए) सेमी का हिस्सा बन जाएगा। सेमी सेमीकॉन इंडिया रिहित सेमीकॉन कार्यक्रमों का आयोजक है। सेमी के एक वेब साइट से उद्धृत किया गया है कि यह साझेदारी सेमी को इस महत्वपूर्ण उभरते बाजार में एक मजबूत उपस्थिति बनाने में मदद करेगी और दोनों संगठनों को ठोस रणनीतियों की पहचान करने में सक्षम बनाएगी जो आपूर्ति श्रृंखला मजबूती बढ़ाने के लिए हमारी संयुक्त शक्तियों का लाभ उठाती है। हाल ही में जारी बयान में कहा गया कि सेमीकॉन इंडिया 2024 के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से संयुक्त नीति वकालत प्रयासों का मार्ग भी प्रशस्त होगा, जिसमें आईईएसए और सेमी उत्पाद विकास और विनिर्माण के लिए प्रोत्साहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेंगे, तथा उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) और डिजाइन से जुड़े प्रोत्साहन (डीएलआई) मॉडल जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का लाभ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि भारत, सेमी और आईईएसए के लिए एक बड़ी जीत है। यह भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर का ऊर्जा केंद्र बनाने की स्थिति में ले जाएगा, आर्थिक वृद्धि को गति देगा और नवाचार को बढ़ावा देगा।


## कच्चा तेल 72 डॉलर प्रति बैरल, पेट्रोल-डीजल स्थिर

नई दिल्ली । वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव 72 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 67 डॉलर प्रति बैरल के करीब है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया है। वैश्विक बाजार में हफ्ते के चौथे दिन शुरूआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.43 डॉलर की उछाल के साथ 71.04 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। वहीं वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 0.36 डॉलर की बढ़त के साथ 66.67 यूएस डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 103.44 रुपये और डीजल 89.97 रुपये प्रति लीटर विक्र रह रहा है। कोलकाता में पेट्रोल का भाव 104.95 रुपये और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 100.86 रुपये और डीजल 92.44 रुपये प्रति लीटर विक्र रह रहा है।









# गे की भूमिका में शाहरुख को पहचानना मुश्किल

आपको जानकर हैरानी होगी कि बालीवुड एक्टर शाहरुख खान ने असल में हिंदी से नहीं, बल्कि अंग्रेजी भाषा में बनी एक फिल्म से अपने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सोशल मीडिया पर शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें किंग खान एक समलैंगिक किरदार में नजर आ रहे हैं। ये फिल्म एक आदर्शवादी छात्र आनंद ग़ोवर/एनी की कहानी है, जो पढ़ाई करने के बजाय भारत की समस्याओं के लिए काल्पनिक समाधान के बारे में सोचना पसंद करता है। यहां तक कि अरुंधति को भी आनंद की प्रेमिका बोहेमियन राधा की भूमिका में दिखाया गया है। इसमें रोशन सेट, ऋतुराज सिंह और चार बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मनोज बाजपेयी भी नजर आए थे। अरुंधति के एक्स हसबैंड प्रदीप किशन द्वारा निर्देशित इन विच ऐनी गिल्स इट टू दोज वन्स को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक इसकी स्क्रीन प्ले के लिए जो रॉय को मिला और दूसरा सर्वश्रेष्ठ ड्रिंगलश फीचर फिल्म के लिए जो प्रदीप को मिला। यह फिल्म 1989 में रिलीज हुई थी। इसमें दिल्ली में 1970 के दशक के अंत में छात्र जीवन की झलक मिलती है। वैसे शाहरुख ने मनोरंजन की दुनिया में इससे एक साल पहले ही कदम रख दिया था। फेमस टीवी सीरियल फौजी से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वे कई अन्य टीवी सीरियल में दिखे जिसमें उम्मीद और वागले की दुनिया और अजीज मिर्जा की सर्कस शामिल है। आज, शाहरुख खान दुनिया के सबसे बड़े फिल्म सितारों में से एक हैं और सबसे अमीर भी। एक्टिंग से अलग उनके प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और उनकी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स जैसे कई व्यवसायों से उनकी कमाई और बढ़ जाती है। शाहरुख खान जल्द किंग में दिखाई देंगे, जिसमें उनकी बेटी सुहाना खान भी होंगी। बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शाहरुख खान ने हिंदी सिनेमा में बहुत ही साधारण तरीके से शुरुआत की थी। लेकिन छोटी-मोटी भूमिकाओं से आगाज करने वाला ये एक्टर आज बॉलीवुड का बादशाह है। मौजूदा दौर में जिस एक्टर के सितारे चमक रहे हैं उसके जीवन में एक समय ऐसा था, जब किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करने में उसने गुरेज नहीं किया।



## विक्रान्त मैसी ने सेक्टर 36 में लिया बिल्कुल अलग चैलेंज

फिल्म 12वीं फेल में अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाले बालीवुड एक्टर विक्रान्त मैसी ने सेक्टर 36 के साथ एक बिल्कुल अलग चैलेंज लिया है, जो एक सच्ची कहानी से इंस्पायर एक काल्पनिक क्राइम थ्रिलर है। मैडॉक फिल्म के द्वार प्रोड्यूस और आदित्य निंबालकर के द्वार डायरेक्ट किया गया, सेक्टर 36 एक स्लम में, सेक्टर 36 से, कई बच्चों के गायब होने की रहस्यमयी कहानी है। एक इंस्पायरिंग बायोग्राफी से एक टेंडर और सरपेंस से भरे थ्रिलर में उनका बदलाव विक्रान्त की वसेंटिलिटी और अलग-अलग रोल को अपनाने की उनकी डेडीकेशन को दिखाता है, जो उनकी पहले से ही शानदार करियर में एक बोलवुड और नए डायरेक्शन की निशानी है। सेक्टर 36 का ट्रेलर विक्रान्त के किरदार की एक झलक दिखाता है, जो फेंस को उत्साहित करता है। फिल्म में विक्रान्त एक सीरियल किलर का रोल निभाने वाले हैं, जिसमें हमने विक्रान्त को पहले कभी नहीं देखा है। जैसे-जैसे उत्साह बढ़ता जा रहा है, फेंस यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि विक्रान्त अपने करियर के इस नए चैलेंज को कैसे संभालेंगे। अपने टेलेंट और वसेंटिलिटी के साथ, वे इस डेटेंस क्राइम थ्रिलर में अपने अनांखे स्टाइल को जोड़ने और अपनी उपलब्धियों की जबरदस्त लिस्ट में एक और शानदार परफॉर्मेंस जोड़ने जा रहे हैं। सेक्टर 36 का पहला गाना उमरु कल रिलीज किया गया है। इसमें फिल्म के कुछ सीन्स और विलप शामिल हैं। विक्रान्त मैसी और दीपक डोबरियाल स्टारर यह फिल्म 13 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल होगी। मालूम हो कि 12वीं फेल में विक्रान्त ने मनोज कुमार शर्मा के रोल में अपनी छाप छोड़ी, जो एक प्रेरणादायक कहानी थी और इस तरह से इसने दर्शकों के साथ गहरा कनेक्शन बनाया। फिल्म में एक ऐसे इंसान के संघर्ष और सफलता को दिखाया गया है, जो अपने सपनों को हासिल करने के लिए चुनौतियों का सामना करता है। विक्रान्त के डिटेल परफॉर्मेंस ने किरदार में इमोशनल गहराई जोड़ दी है, जिसने उन्हें इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड एक्टर में से एक के रूप में स्थापित किया है। इस साल के शुरू में, एक्टर ने फिर आई हसीं दिनरुबा में रिशु का रोल अदा किया है। इस रोल में, वो एक ऐसा पति के किरदार में हैं, जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। ये किरदार दिखाता है कि विक्रान्त कैसे अलग-अलग और डाइवर्स किरदारों को चुनते हैं और हमेशा अपनी भूमिकाओं को गहरा और कई लेयर के साथ उन्हें निभाया करते हैं।

## इंडस्ट्री में डर और निराशा का सामना किया दीया मिर्जा ने



अपने हालिया इंटरव्यू में एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने बताया कि कैसे उन्होंने इंडस्ट्री में अपने पहले दिनों में डर और निराशा का सामना किया। दीया मिर्जा ने आईसी 814- द कंधार हाईजैक में अपनी हालिया भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की है, लेकिन उनके करियर की शुरुआत आसान नहीं थी। दीया ने उन दिनों की यादें साझा की जब उनकी कुछ फिल्मों सफल नहीं हुईं और वह बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। दीया ने खुलासा किया, मैं दुखी थी और डर से भरी हुई थी। मीडिया और इंडस्ट्री ने हमारे दिमाग में यह बीटा दिया था कि औरतों की शैल्फ लाइफ होती है। अगर आप 20 साल की हैं, तो आपको किसी बड़े स्टार के साथ कास्ट नहीं किया जाएगा। मेल सुपरस्टार्स को आपकी एक निश्चित उम्र चाहिए और एक निश्चित लुक में होना चाहिए। दीया ने बताया कि अब स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अब लोगों को यह समझ आ गया है कि यह एक नौकरी है, आपकी पूरी पहचान नहीं है। यह एक हिस्सा है, लेकिन यह सबकुछ नहीं है। अब यह समझा जाने लगा है कि यह जूनून है, लेकिन हमारे अस्तित्व को नियंत्रित नहीं कर सकता। दीया ने यह भी कहा कि कैसे कार्यस्थल पर महिलाएं अभी भी संघर्ष कर रही हैं। मुझे पता है कि महिलाओं को कैसे शादी करने वाली महिलाओं को काम पर नहीं रखा जाता है। यह वास्तविकता है कि एक नौकरी आपके सभी निर्णयों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन हमें इसे लेकर जागरूक रहना होगा। दीया मिर्जा के अनुसार, बॉलीवुड में अब एक बदलाव आ रहा है जहां महिलाओं की स्थिति और भी बेहतर हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में महिला एक्ट्रेस को अधिक सम्मान और अवसर मिलेंगे।

## 57 साल के हो गए अक्षय कुमार, शेयर की 'भूत बंगला' की झलक

बालीवुड के खतरों के खिलाडी यानि कि एक्टर अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग हॉरर कॉमेडी मूवी 'भूत बंगला' की पहली झलक शेयर की। हिंदी सिनेमा में स्मार्ट और हैंडसम लुक्स से अभिनेत्रियों के दिलों पर राज करने वाले अक्षय ने एक्स पर फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर किया। तस्वीर में अक्षय एक कटोरी में दूध पीते हुए नजर आ रहे हैं और उनके कंधे पर एक काली बिल्ली खड़ी है। अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, साल दर साल मेरे जन्मदिन पर आपके प्यार के लिए धन्यवाद! इस साल का जश्न भूत बंगला के फस्ट लुक के साथ। मैं 14 साल बाद प्रियदर्शन के साथ फिर से जुड़ने को लेकर बेहद उत्साहित हूँ। इस ड्रीम कोलेबोरेशन को काफी समय हो गया है। इस जर्नी को आप सभी के साथ शेयर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैजिक के लिए बने रहे 15 फिल्म की ज्यादा डिटेल्ड शेयर नहीं की गई और यह 2025 में रिलीज होगी। अक्षय और प्रियदर्शन ने साथ में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। जिनमें हेरा फेरी, दे दना दन, भूत भूलेया, गरम मसाला और खट्टा मीठा जैसी फिल्में शामिल हैं। इससे पहले, बॉलीवुड के एक्शन हीरो और सुपरस्टार अक्षय कुमार ने गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर अपने नए प्रोजेक्ट का संकेत दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी अपकमिंग फिल्म की पहली झलक भी दिखाई, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया था। एक्टर ने सोशल मीडिया पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, गणपति बप्पा मोरया, आज के दिन से बेहतर दिन और क्या हो सकता है, जब आप कुछ खास होने का संकेत दें। मेरे जन्मदिन पर इसका खुलासा होगा। इंतजार करिए।



## धनिया का किरदार निभाना बेहद चुनौतीपूर्ण: रिमिता साबल

छोटे परदे की अभिनेत्री रिमिता साबले ने कहा कि उन्होंने शुरुआत में शो में एक नकारात्मक किरदार के लिए ऑडिशन दिया था। टेलीविजन शो भीमा में धनिया की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री ने जिस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था वह वर्तमान में निभाए जा रहे उनके किरदार से बिल्कुल अलग थी। रिमिता ने कहा, यह काफी दिलचस्प कहानी है। मैंने शो भीमा के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन वह धनिया की भूमिका के लिए नहीं था। मैंने एक नकारात्मक भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन मुझे धनिया की भूमिका के लिए चुना गया। यह पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने वाला था। मैं बहुत रोमांचित थी। धनिया का किरदार निभाना बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं अपने करियर में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को लेकर खुश हूँ। अभिनेत्री ने अपने किरदार के बारे में कहा कि सामाजिक चुनौतियों के बावजूद अपनी बेटी भीमा की पढ़ाई के लिए धनिया की तरफदारी करना उसकी परवरिश की भावना का प्रमाण है। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद धनिया का हिम्मत और दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। अभिनय जगत में आने से पहले अभिनेत्री ने 2019 तक कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम किया। हालांकि वह शुरू से ही एक्टिंग करना चाहती थी। उन्होंने आगे बताया, 'अपने खाली समय में मैं वीडियो बनाती थी और सोशल मीडिया पर मोनोलॉग करती थी। मुझे मॉडलिंग में भी दिलचस्पी थी और मैं उस रास्ते से इंडस्ट्री में प्रवेश करना चाहती थी। हालांकि, 2020 में महामारी ने मेरे करियर को अभिनय की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कहा, 'उन्होंने मुझे भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सही भावों का उपयोग करने में मार्गदर्शन किया, इस प्रकार धनिया के मेरे चित्रण को और अधिक वास्तविक बना दिया।' शो के लिए अपनी तैयारी के बारे में उन्होंने कहा, महाराष्ट्रीय होने के नाते उत्तर प्रदेश में सेट किए गए शो पर काम करने के लिए मुझे स्थानीय बोली और लहजे में महारत हासिल करने की जरूरत थी ताकि मैं अपने किरदार के प्रति प्रामाणिक और सच्ची बन सकूँ। मेरे पिछले अनुभव से मुझे काफी मदद मिली। मेरी टीम और सह-कलाकारों के समर्थन ने वास्तव में इसमें मेरी काफी मदद की।



## 15 साल से ऊपर के हर शख्स को दें सीपीआर की ट्रेनिंग : काजोल



हाल ही में फेमस एक्ट्रेस काजोल ने हार्ट अटैक से मरने वालों की बढ़ती संख्या पर अपनी चिंता जाहिर की है और लोगों का खास सलाह दी है। एक्ट्रेस काजोल ने लोगों से अपील की कि 15 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को सीपीआर देना सीखना चाहिए। सीपीआर देकर कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित व्यक्ति को बचाया जा सकता है। उन्होंने वीडियो शेयर कर लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग लेने के लिए जागरूक किया और कहा- नमस्ते, कार्डियक अरेस्ट से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर कार्डियक अरेस्ट के पीड़ितों को सीपीआर नहीं दिया गया तो उसका बचना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा, रिवाइव हार्ट फाउंडेशन के साथ जुड़कर 2024 में विलेप एक कोशिश करें। 15 साल से ऊपर के हर शख्स को सीपीआर की ट्रेनिंग दें। आप अपनी जान पहचान के कार्डियोलॉजिस्ट से भी सीपीआर देना सीख सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन किसी के मुश्किल वक्त में काम जरूर आ सकता है। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए काजोल ने कैप्शन में लिखा, मैं

कार्डियक अरेस्ट अवेयरनेस वीक के फेनो एम्बेसडर के रूप में रिवाइव हार्ट फाउंडेशन के अधिष्ठात्रीय काम का सपोर्ट करने के लिए सम्मानित महसूस कर रही हूँ। इस वर्ष, यह कार्डियक अरेस्ट के बारे में जागरूकता पैदा करने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीपीआर सीखें। हमारा उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को ट्रेनिंग देना और उन्हें भविष्य में किसी की जान बचाने में मदद करने के लिए सशक्त बनाना है। बता दें, हाल ही में टीवी एक्टर विकास सेठी का निधन भी हार्ट अटैक से हुआ है। एक्टर को नौद में सोते वक्त दिल का दौरा पड़ा और 48 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। देश दुनिया में कार्डियक अरेस्ट से होने वाली मौतों के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत कम उम्र में ही लोग हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से भी अब तक कई सेलेब्स दिल का दौरा पड़ने से अपनी जान गुंवा चुके हैं।



## बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए चेन्नई पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली - बांग्लादेश के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट गुरुवार रात चेन्नई पहुंची। पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर को एमए चिदंबरम स्टेडियम में शुरू होने वाला है। यह सीरीज टी20 विश्व कप के बाद भारत की टेस्ट क्रिकेट में वापसी की पहली सीरीज होगी। प्रमुख खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत और केएल राहुल को टीम बस में चढ़ते देखा गया, जो टेस्ट प्रारूप में उनकी वापसी का संकेत है।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप फाइनल में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद से बुमराह ने कोई टेस्ट नहीं खेला है। दिसंबर 2022 में एक गंभीर कार दुर्घटना के बाद पंत वापसी कर रहे हैं। चोट के कारण इंग्लैंड सीरीज

से चुकने वाले राहुल भी टीम में शामिल हो गए हैं। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति वाली टीम में विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं। कोहली अपने बेटे के जन्म के बाद ब्रेक लेकर घरेलू मैदान पर इंग्लैंड सीरीज से चुकने के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं।

बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज जीती थी। हालांकि चोटों के कारण उन्होंने बदलाव किए हैं, जिसमें तेज गेंदबाज शीफा अलम के जगह अनेकेश बल्लुआ जैकर अली को शामिल किया गया है। भारत के नए मुख्य कोच गौतम गंभीर का लक्ष्य अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतना है। यह सीरीज भारत के न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैचों

और ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए मंच तैयार करती है। स्टाफ खिलाड़ियों की वापसी और उच्च दांव के साथ, भारत-बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के दिलचस्प होने की उम्मीद है।

### बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुनेल (विकेटकीपर), आर अश्विन, आर जडेजा, अखर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमरा, यश दयाल।



## क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर रचा इतिहास, 1 बिलियन फॉलोअर्स वाले पहले व्यक्ति बने



**सपोर्ट्स डेस्क।** क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने केवल फुटबॉल के मैदान पर बल्कि डिजिटल वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। पुर्तगाल के इस खिलाड़ी ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 बिलियन फॉलोअर्स को पार करने वाले पहले व्यक्ति बने गए हैं। यह मील का पत्थर दुनिया भर में सबसे प्रभावशाली और सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले एथलीट के रूप में जाने जाने वाले रोनाल्डो की वैश्विक आइकन के रूप में स्थिति को और भी मजबूत करता है।

रोनाल्डो के चौका देने वाले सोशल मीडिया फॉलोअर्स में इंस्टाग्राम पर 639 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स, फेसबुक पर 170 मिलियन, एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर 113 मिलियन और यूट्यूब पर 60.5 मिलियन सब्सक्राइबर शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से उनका यूट्यूब चैनल इस महिने की शुरुआत में ही लॉन्च किया गया था, फिर भी यह अपने पहले दिन 15 मिलियन सब्सक्राइबर और पहले साप्ताहिक में 50 मिलियन तक पहुंच गया। एक्स पर एक विशेष पोस्ट में रोनाल्डो ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को

शोषण की और अपने प्रशंसकों के प्रति उनके अटूट समर्थन और विश्वास के लिए आभार व्यक्त किया। खेल जगत में उनके प्रशंसकों की संख्या एक महत्वपूर्ण घटना बन गई है, उनका प्रतिष्ठित ए-सि-उत्सव विभिन्न खेलों में एक निरंतर दृश्य बन गया है, जो केवल फुटबॉल तक ही सीमित नहीं है। रोनाल्डो की पोस्ट में लिखा है, 'हमने इतिहास रच दिया है - 1 बिलियन फॉलोअर्स! यह खेल और संस्था से अधिक है - यह खेल और उससे परे हमारे साझा जुनून, प्रेरणा और प्यार का प्रमाण है...मदारी की सड़कों से लेकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक, मैंने हमेशा अपने परिवार और आपके लिए खेला है, और अब मैं 1 बिलियन लोग एक साथ खड़े हूँ। रोनाल्डो ने आगे कहा, 'आप हर क्षण पर मेरे साथ रहें हैं, सभी उतार-चढ़ावों के दौरान...मुझ पर विश्वास करने, आपके समर्थन के लिए और मेरे जीवन का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। सबसे अच्छा आभार आपका है, और हम आगे बढ़ते रहेंगे, जीते रहेंगे और साथ मिलकर इतिहास बनाते रहेंगे।'

## भारतीय टीम को बांग्लादेश के मुशफिकुर से रहना होगा सावधान



—टीम में विकेटकीपर के तौर पर हे धोनी जैसा दबदबा

मुम्बई (एजेंसी)। बांग्लादेश के साथ 19 सितंबर से होने वाली टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम जीत की प्रबल दावेदार है। भारतीय टीम को आज तक बांग्लादेश की टीम घरेलू मैदान पर नहीं हारा पाया है। हालांकि इसके बाद भी उसे टीम के विकेटकीपर बल्लुआ मुशफिकुर रहिये सहित कुछ खिलाड़ियों से सावधान रहना होगा। मुशफिकुर का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, इस खिलाड़ी ने

टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से भी ज्यादा रन बनाए हैं। मुशफिकुर ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में 191 रन की शानदार पारी खेली थी। इससे उनकी टीम पाक के खिलाफ हारवी हो गयी थी। बांग्लादेश ने एक

एक समय 218 रन पर 5 विकेट छोड़े थे पर इसके बाद रहिये ने उसे 500 के ऊपर पहुंचाया। इससे टीम को 10 विकेट से जीत मिली।

मुशफिकुर ने 2019 तक टेस्ट मैचों में विकेटकीपिंग की। इसके बाद अब वह बल्लुआ के तौर पर खेलते हैं। विकेटकीपर के तौर पर उन्हें अपनी टीम में वही स्थान हासिल था, जो भारतीय टीम में धोनी के पास था। मुशफिकुर ने जूने ही टेस्ट मैच में, जितने धोनी ने खेले हैं।

धोनी ने अपने 10 साल के टेस्ट करियर में 90 मैच खेले। उन्होंने इन मैचों की 144 पारियों में 38.09 की औसत से 4876 रन बनाए। वहीं मुशफिकुर रहिये ने अपने 18 साल के टेस्ट करियर में 90 टेस्ट मैच ही खेले हैं। उन्होंने इन मैचों की 166 पारियों में 39.01 की औसत से 5892 रन बनाए हैं।

## वॉन के सचिन पर दिये बयान को लेकर भड़के गावस्कर

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के महान बल्लुआ रहे सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के इस बयान की कड़ी आलोचना की है। जिसमें वॉन ने कहा था कि जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन के सचिन तेंडुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, साथ ही कहा था कि यह टेस्ट क्रिकेट के लिए लाभदायक रहेगा। इस पर गावस्कर ने कहा कि अगर यह रिकॉर्ड सचिन के नाम है, तो इसमें क्या दिक्कत है। साथ कहा कि अगर इंग्लैंड कको कोई क्रिकेटर इस रिकॉर्ड को तोड़ता है तो इससे टेस्ट क्रिकेट को कैसे फायदा होगा ये वॉन बतायें।

रूट ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए जमकर रन बनाये हैं। इस बल्लुआ ने श्रीलंका के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जमाए और 34 शतक लगाकर गावस्कर की



बराबरी की। रूट अब टेस्ट क्रिकेट में 12,402 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में छठे स्थान पर आ गए हैं, और उन्होंने इस

प्रकार श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संकारा को पीछे छोड़ दिया है।

वॉन ने कहा कि रूट के पास सचिन के 15,921 रनों का रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता है और यह टेस्ट क्रिकेट के लिए एक सकारात्मक प्रयास रहेगा। इसी को लेकर गावस्कर ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसा क्या गलत हो रहा है जिसे सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर यह रिकॉर्ड तेंडुलकर के नाम है, तो इसे बदलने की आवश्यकता क्यों है। साथ ही उन्होंने ब्रिटिश मीडिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह धारणा बनाई जा रही है कि बीसीसीआइ टेस्ट क्रिकेट को पसंद नहीं करता, जबकि भारतीय टीम हर सत्र में अन्य देशों की तुलना में अधिक टेस्ट मैच खेलती है, चाहे वह घरेलू मैदान पर हो या विदेशी दौरों पर।

## बेटे आजम के साथ गलत बर्ताव हुआ, उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंची है

कराची (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान मोईन खान ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में आजम खान के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उसके कारण उनके बेटे के आत्मविश्वास को ठेस पहुंची है। पाकिस्तान के इस पूर्व विकेटकीपर बल्लुआ ने अपने बेटे के करियर को हूप नुकसान के लिए पूर्व पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा को जिम्मेदार ठहराया है। मोईन ने कहा कि अमेरिका में 2024 टी20 विश्व कप के दौरान पाकिस्तान द्वारा खेले गए सभी मैच देखने के बाद वह आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि उनका बेटा विकेटकीपर बल्लुआ की भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त है। मोईन ने कहा कि मैंने पूरा विश्व कप और उससे पहले के मैच देखे और ऐसा लग रहा था कि आजम



विकेटकीपिंग और बल्लुआजी के लिए पहली पसंद था। फिर अचानक सिर्फ 1 मैच के बाद पूरी रणनीति बदल दी गई। आजम को फिटनेस को लेकर प्रशंसकों का गुस्सा झेलना पड़ा है। विश्व कप में अमेरिका के

खिलाफ टीम की शुरुआती मैच में वह पहली गेंद पर खाता खोले बिना आउट हो गए थे। इसके बाद उन्हें भारत के खिलाफ मैच से बाहर कर दिया गया।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 6000 से अधिक रन बनाने वाले मोईन ने कहा कि आजम को एक मैच के बाद विकेटकीपिंग का मौका नहीं दिया गया और पहली ही गेंद पर (अमेरिका के खिलाफ) आउट होने के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। कोई भी खिलाड़ी पहली गेंद पर आउट हो सकता है, लेकिन यहां खिलाड़ियों को विकसित करने की जो परंपरा हुआ करती थी, वह अब नहीं रही। चाहे कप्तान हो या प्रबंधन, अगर वे खिलाड़ियों में इतनी जल्दी बदलाव करते रहेंगे तो हम अच्छे खिलाड़ी कैसे तैयार कर सकते हैं?

## पॉटिंग ने ऋषभ की प्रशंसा करते हुए उसे एक महान खिलाड़ी बताया

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पॉटिंग ने भारतीय क्रिकेट टीम के आक्रामक विकेटकीपर - बल्लुआ ऋषभ पंत को मैच विजेता खिलाड़ी करार दिया है। पॉटिंग ने ऋषभ की प्रशंसा करते हुए कहा कि इतने कम समय में ही इस खिलाड़ी ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उससे उसकी अपार क्षमताओं का पता चलता है। इस खिलाड़ी ने जिस प्रकार हार न मानते हुए भीषण कार हादसे के बाद भी शानदार वापसी की है उससे पता चलता है कि वह एक महान खिलाड़ी है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वह तीनों ही प्रारूपों में एक समान रूप से बेहतरीन बल्लुआजी करता है। साथ ही कहा कि बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भी उसपर सभी की नज़रें रहेंगी। पिछली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज 2-1 से जीती थी, जिसमें इस बल्लुआ ने अहम भूमिका निभाई थी। पॉटिंग ने इस क्रिकेटर की क्षमताओं की सराहना करते हुए कहा, वह किसी भी अन्य खिलाड़ी की तरह ही एक गंभीर क्रिकेटर हैं। हमने उन्हें खेले हुए देखा है और स्टंप माइक पर उनकी आवाज सुनी है। वह एक मजेदार और टीम के साथ घुल-मिलकर रहने वाला खिलाड़ी है पर वह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं खेलता, वह एक सच्चा विजेता है। पॉटिंग ने इस विकेटकीपर की तुलना पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से करते हुए कहा, इस क्रिकेटर ने अब तक 33 टेस्ट मैच खेले हैं और 5 शतक लगाए हैं। वहीं धोनी ने 90 टेस्ट मैच खेले और 6 शतक लगाए। इस प्रकार देखा जाये तो इस युवा ने इतने कम मैचों में जो हासिल किया है, वह प्रशंसा के योग्य है। वह एक गंभीर क्रिकेटर हैं और उनके प्रदर्शन से यह साफ दिखता है। पॉटिंग ने कहा कि वह कार हादसे के बाद से ही ऋषभ के लगातार संपर्क में थे। पॉटिंग उस समय दिल्ली केपिटल्स के कोच थे। उन्होंने कहा, यह एक ऐसी वापसी है जो हैरान करती है। मैंने जब उनकी हालत देखी, तो मुझे लगा कि वह आईपीएल 2024 में नहीं खेल पाएंगे पर इस क्रिकेटर ने मुझे ये कहा, 'मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं आईपीएल के लिए टीम की जाऊंगा।'

## भारत ने एकल के लिए फिर से जताया बालाजी पर भरोसा, स्वीडन के खिलाफ खेलेंगे शुरुआती मैच

स्टाकहोम (एजेंसी)। भारतीय डेविस कप टीम ने लगातार दूसरी बार एकल मुकाबले की जिम्मेदारी निभाने के लिए युगल विशेषज्ञ एन श्रीराम बालाजी पर भरोसा जताया है जो स्वीडन के खिलाफ विश्व युगल एक के मैच में कप्तान रोहित राजपाल की अनुपस्थिति वाली टीम का शुरुआती मैच खेलेंगे। भारतीय कप्तान ने टीम में दूसरे एकल खिलाड़ी के तौर पर रामकुमार रामनाथन को चुना है। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान में 'ग्रास कोर्ट' पर एकल में प्रतिस्पर्धा करने वाले बालाजी शनिवार को स्वीडन के शीर्ष खिलाड़ी एलियास यमेर (विश्व रैंकिंग 238) के खिलाफ मैच के साथ इस इनडोर मुकाबले की शुरुआत करेंगे।

इस टीम में भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी रामकुमार (विश्व रैंकिंग 332) दूसरे एकल में स्वीडन के दिग्गज व्बोर्ग के बेटे लियो व्बोर्ग (विश्व रैंकिंग 603) से भिड़ेंगे। इन दोनों खिलाड़ियों का इससे पहले एटीपी टूर पर



आमना-सामना नहीं हुआ है। रामकुमार और बालाजी रिविगर को फिनिश बगैरे और आंद्रे गोरानसन के खिलाफ युगल और रिवर्स एकल भी खेलेंगे। शुरुआती दिन अगर स्कोर 1-1 की बराबरी पर रहे तो युगल जोड़ी में बदलाव हो सकता है। भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने पीट की समस्या के

कारण मुकाबले के लिए खुद को अनुपलब्ध बताया, जबकि अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प शशिकुमार मुकुंद के चयन पर विचार नहीं किया गया।

कप्तान राजपाल ने कहा कि अन्य एकल विकल्प निकां पुनाचा फिट हैं लेकिन टीम प्रबंधन रणनीति के तहत बालाजी को उतारना

चाहता है। बालाजी और रामकुमार दोनों ने तेज तर्रार सर्विस करने के बाद नेट का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं और भारतीय कप्तान शनिवार को उनसे इसी तरह की योजना चाहते हैं।

राजपाल ने मैचों के ड्रा के बाद पीटीआई से कहा, "निकां (पुनाचा) फिट है, फिजियो ने काफी मेहनत की है लेकिन हम उनकी योजना (स्वीडन) की तहत नहीं खेलना चाहते हैं। वे सर्विस लाइन के पास से खेलना पसंद करते हैं। हमारी अपनी रणनीति है, हमारे ये दोनों खिलाड़ी नेट के करीब जाकर खेलना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि दबाव दूसरी टीम पर हो।" राजपाल ने कहा कि पुनाचा भी इस रणनीति का पालन करने में सक्षम हैं लेकिन उनके पास इस खिलाड़ी लिए कुछ अन्य योजनाएं हैं। उन्होंने बताया, "मैं कुछ योजनाओं का खुलासा नहीं करना चाहता हूँ।" इस बात की संभावना है कि पुनाचा को रिविगर को युगल खेलने के लिए कहा जाएगा।

## आईसीसी महिला टी20 विश्व कप जीत सकती है न्यूजीलैंड: मैकमिलन



वेलिंगटन। न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के सहायक कोच क्रैग मैकमिलन का मानना है कि अगले माह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में होने वाले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में उनकी टीम जीत की प्रबल दावेदार रहेगी। मैकमिलन के अनुसार उनकी टीम में युवा और अनुभवी दोनों तरह की खिलाड़ी शामिल हैं। न्यूजीलैंड ने टी20 विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम में अनुभवी सूजी बेट्स और सोफी डिवान्डर्न जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। ये जोड़ी टी20 शीर्ष क्रम में बड़े स्कोर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। कोच के अनुसार यह कीवी टीम की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह जोड़ी टूर्नामेंट की शुरुआत से ही टूर्नामेंट के हर संस्करण में शामिल रही है। यह जोड़ी दो बार न्यूजीलैंड (2009, 2010) के साथ प्रतियोगिता में उपविजेता रही और अन्य दो अवसरों पर सेमीफाइनल तक पहुंची। ऐसे में ये एक बार फिर टूर्नामेंट की जीतना चाहेगी। मैकमिलन ने कहा, 'जब वे (डिवान्डर्न और बेट्स) रिटायर हो जाएंगे, तो वे न्यूजीलैंड के लिए खेलने वाले दो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक बन जाएंगे। दोनों के लिये यह विश्व कप की टूर्नामेंट की जीत का बेहतरीन अवसर है। मैकमिलन ने कहा, 'मुझे हमारे पास मौजूद अनुभवी खिलाड़ियों से सीखने वाले युवाओं के साथ संतुलन बनाना अच्छा लगता है। हमें जो चाहिए वह है कि हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार अपना काम करे और अगर ऐसा होता है, तो आप कभी नहीं जान सकते कि विश्व कप के समय क्या हो सकता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमने सीखा है कि दुनिया की शीर्ष टीमों के साथ लगातार प्रतियोगिता करने के लिए किस प्रकार से खेलना होता है। साथ ही कहा कि टीम आजकल विश्व कप के लिए अभ्यास में लगी है।

## इंग्लैंड टीम में शामिल ऑलराउंडर ब्रायडन के पिता ने खेला था जिम्बाब्वे से

लंदन। पाकिस्तान दौरे पर होने वाली टीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम में शामिल ऑलराउंडर ब्रायडन कार्स एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें पिता ने जिम्बाब्वे की ओर से खेला था। वहीं अब ब्रायडन इंग्लैंड की ओर से खेलेंगे। विश्व क्रिकेट में ऐसे कई मामले सामने आये हैं जब पिता ने किसी एक टीम से खेला है और बेटा किसी दूसरी टीम से खेलने लगे। ब्रायडन का मामला भी कुछ ऐसा ही है। इस खिलाड़ी का जन्म दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न केप में हुआ था पर वह इंग्लैंड की ओर से टेस्ट डेब्यू करने जा रहा है। इंग्लैंड ने अपने 17 सदस्यीय टेस्ट दल में कार्स को जगह दी है। कार्स दाएं हाथ के तेज गेंदबाज और बल्लुआ हैं। इस क्रिकेटर ने इंग्लैंड की ओर से एकदिवसीय और टी20 अंतरराष्ट्रीय में भी पहले ही डेब्यू कर लिया था। ब्रायडन के पिता जेम्स कार्स का जन्म जिम्बाब्वे में हुआ था। जेम्स कार्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिम्बाब्वे की ओर से नहीं खेल पाये पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जिम्बाब्वे की ओर से खेलते रहे। जेम्स ने कार्टी क्रिकेट में इंग्लैंड के नॉर्थम्प्टन शॉर की ओर से खेला था। साल 2019 में जेम्स ने इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त की थी। इंग्लैंड की टीम अगले विश्व कप में पाकिस्तान दौरे पर जाएगी। इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा जबकि दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच क्रमशः 15 और 24 अक्टूबर से कराची और रावापिंडी में होगा। कार्स ने जुलाई 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ ही एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में डेब्यू किया था। उन्होंने 14 वनडे मैचों में 15 विकेट लिए हैं जबकि 3 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनके नाम 4 विकेट दर्ज हैं। इसके अलावा एकदिवसीय में उनके नाम 155 रन हैं।

## डायमंड लीग फाइनल में भाग लेंगे नीरज चोपड़ा और अविनाश साबले, कड़ा होगा मुकाबला

बुसेल्स (बेल्जियम) (एजेंसी)। बुसेल्स डायमंड लीग फाइनल 2024 में भारत के दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा और स्टीपलचेजर अविनाश साबले भाग लेंगे। ये स्पर्धाएं शुक्रवार से बेल्जियम में शुरू होंगी। ओलंपिक डॉट कॉम के अनुसार अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपलचेज में भाग लेंगे जिसका समय 14 सितंबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 12:39 बजे निर्धारित है। इस बीच नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्पर्धा में भाग लेंगे, जो 15 सितंबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 1:52 बजे शुरू होगी।

यह पहली बार है जब दो भारतीय एथलीट डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई हुए हैं। नीरज चोपड़ा का डायमंड लीग में सफल इतिहास

रहा है, उन्होंने 2022 में फाइनल जीता और 2023 में दूसरा स्थान हासिल किया। 2024 सीजन में, चोपड़ा ने दो मीट में 14 अंक अर्जित किए और समग्र स्टीडिंग में चौथे स्थान पर रहे। मई में दोहा लेग और पिछले महिने लॉज्ड इवेंट दोनों में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। ग्रैनेड के एंडरसन पीटर्स 29 अंकों के साथ भाला फेंक स्टीडिंग में शीर्ष पर रहे, उसके बाद जर्मनी के जूलियन वेबर 21 अंकों के साथ दूसरे और केनिया के गत चैंपियन जैकब वडलेज 16 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। पेरिस 2024 ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इस साल डायमंड लीग में केवल एक बार प्रतिस्पर्धा की और बुसेल्स फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए।

अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपलचेज के लिए डायमंड लीग स्टीडिंग में दो मीटिंग में तीन अंकों के साथ 14वें स्थान पर रहे। दूसरे बावजूद चार उच्च रैंक वाले एथलीटों के इन्फेक्ट से बाहर होने के कारण उन्होंने शीर्ष 12 में स्थान हासिल किया। जुलाई में डायमंड लीग के पेरिस चरण में सेबल ने 8:09.91 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड समय बनाया, जहां वे छठे स्थान पर रहे और आपस में मिलिसिया चरण में वे 14वें स्थान पर रहे। बुसेल्स में होने वाली प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धी होगी जिसमें दो बार के ओलंपिक चैंपियन मोरको के सौफियाने बक्काली और केन्या के पेरिस 2024 में कांस्य पदक विजेता अब्राहम किब्वोट 3000 मीटर स्टीपलचेज में प्रतिस्पर्धा करेंगे।



## संक्षिप्त समाचार

युद्ध की तैयारी में सनकी किंग! उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर फिर दार्जी बैलिस्टिक मिसाइलें



सियोल, एजेंसी। उत्तर कोरिया चीन की तरह अपनी उकसावे वाली कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहा है। माना जा रहा है कि सनकी जोर-शोर से युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने बृहस्पतिवार को समुद्र की ओर कम दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें दार्जी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक दिन पहले ही दुश्मनों के साथ लड़ाई में देश की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से तैयार रखने का संकल्प लिया था। दक्षिण कोरिया के 'ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टॉफ' ने कहा कि उसे उत्तर कोरिया की राजधानी से दार्जी गैर मिसाइलों का पता चला जो 360 किलोमीटर की दूरी पर कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच समुद्र क्षेत्र में जाकर गिरी। जापान के प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा ने अधिकारियों को जहाजों एवं विमान की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया लेकिन तत्काल किसी क्षति की कोई सूचना नहीं है। मिसाइलों ने जितनी दूरी तय की है उससे प्रतीत होता है कि इन्हें दक्षिण कोरिया को निशाना बनाने के इरादे से विकसित किया गया है। दक्षिण कोरिया के 'ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टॉफ' ने मिसाइलें दागे जाने की निंदा की और उसे उकसावे वाला कृत्य बताया और कहा कि इससे कोरियाई प्रायद्वीप में शांति को गंभीर खतरा है।

हमें मिला टॉप कमांडर का खत जिससे पता चला गाजा में हमारा को हुआ भारी नुकसान : इजरायल यरुशलम, एजेंसी। हमारा एक वरिष्ठ कमांडर द्वारा लिखे एक पत्र का इजरायल ने खुलासा किया है। इसमें गाजा पट्टी में इजरायली हमले से उग्रवादी समूह को हुए भारी नुकसान की जानकारी है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली सेना ने कहा है कि यह पत्र हमारा को खान यूनिंस ब्रिगेड के कमांडर रफा सलामा द्वारा लिखा गया है। इसमें दावा किया गया है कि हमारा के लगभग 80 प्रतिशत लडाके या तो मारे गए हैं, घायल हुए हैं या युद्धभूमि से भाग गए हैं। इजरायली सेना के खुफिया निदेशालय का कहना है कि जुलाई में हवाई हमले में मारे गए सलामा ने यह पत्र हमारा नेता याह्या सिनवार और उसके भाई मुहम्मद को लिखा था। इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने बुधवार को कहा कि यह पत्र गाजा में इजरायली सैनिकों द्वारा जब्त की गई सामग्रियों में से एक है। गैलेंट के अनुसार, इस पत्र में हमारा को हुए नुकसान का जिक्र है। इसमें बताया गया है कि उसके 70 प्रतिशत इंधनार नष्ट हो गए हैं, 90-95 प्रतिशत रॉकेट नष्ट हो गए, और लाइवके मारे गए और कई घायल हो गए या भाग गए। गैलेंट ने पत्र का हवाला देते हुए कहा, उनके पास केवल 20 प्रतिशत (लडाके) ही बचे हैं। पत्र में कथित तौर पर सिनवार बंधुओं से मदद मांगी गई है, जिसके बारे में गैलेंट ने कहा कि यह महीनों तक चले इजरायली बमबारी के बाद हमारा के भीतर बढ़ते संकट को दर्शाता है। हमारा ने 7 अक्टूबर, 2023 को अचानक दक्षिण इजरायल पर हमला किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 250 से ज्यादा को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद से इजरायल हमारा के खिलाफ गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चला रहा है।

वह इसकी कीमत चुकाएंगी, कमला हैरिस को राष्ट्रपति चुनाव के लिए टेलर स्विपट के समर्थन पर ट्रंप



वॉशिंगटन, एजेंसी। दुनिया की सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली सितारों में से एक टेलर स्विपट ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का समर्थन किया है। इसे लेकर जानेमाने उद्योगपति एलन मस्क ने उन पर निशाना साधा था। अब पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के मौजूदा राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं टेलर स्विपट का प्रशंसक नहीं था। वह बहुत उदार शख्स है। वह हमेशा एक डेमोक्रेट का समर्थन करती हैं। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जिस क्षेत्र में वह मशहूर हैं, उससे जुड़े लोग ही स्विपट को सही-गलत की सीख देंगे। इससे पहले स्विपट ने मंगलवार को अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ट्रंप के बजाय कमला हैरिस का समर्थन किया था। उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को स्थिर, प्रतिभाशाली नेता कहा था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, मैं 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस और टिम वॉल्ज को अपना वोट दूंगी। मैं कमला हैरिस के साथ हूँ, क्योंकि वह लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती हैं। मुझे लगता है कि अगर हम अराजकता के बजाय शांति से आगे बढ़ें तो हम इस देश में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।

## इराक-ईरान में पकड़े गए 90 प्रतिशत भिखारी पाकिस्तानी, तीर्थयात्री बनकर करते हैं घुसपैठ

तेहरान, एजेंसी। हाल के दिनों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भिखारी मध्य पूर्व के देशों की यात्रा कर रहे हैं, जिससे स्थानीय अधिकारियों के बीच चिंता बढ़ गई है। ये लोग धार्मिक तीर्थयात्री बनकर इन देशों में प्रवेश करते हैं, लेकिन बाद में भीख मांगने लगते हैं। इस मुद्दे ने स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है, जिससे पाकिस्तानी यात्रियों की कड़ी जांच शुरू हो गई है। यह समस्या विशेष रूप से इराक में गंभीर है, जहाँ कई पाकिस्तानी धार्मिक यात्रा के लिए आते हैं लेकिन वहाँ पहुंचकर भीख मांगने लगते हैं। रिपोर्टों के अनुसार, मध्य पूर्व के देशों में गिरफ्तार किए गए भिखारियों में से 90% पाकिस्तानी नागरिक होते हैं।



इसने तीर्थयात्रा वीजा का गलत इस्तेमाल करने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। चिंता की बात यह भी है कि इराक में 18 से 25 साल की पाकिस्तानी लड़कियाँ भी भीख मांगने में लिप्त पाई गई हैं, जो इस समस्या की गंभीरता को और बढ़ा रही है। यह समस्या ईरान में भी देखने को मिल रही है, जहाँ पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा भिखारी बनने के कई मामले सामने आए हैं। ईरानी अधिकारियों ने भी पाकिस्तानी नागरिकों के भिखारी बनने के साथ-साथ नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी में लिप्त होने पर चिंता जताई है। यह समस्या पाकिस्तान में सक्रिय संगठित भिखारी नेटवर्क का हिस्सा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत ने शुरू की कोशिशें, सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी एनएएसए से मिले अजीत डोगाल

सेंट पीटर्सबर्ग, एजेंसी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोगाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। दोनों शीर्ष अधिकारियों की बैठक में यूक्रेन संघर्ष का समाधान खोजने में भारत की संभावित भूमिका और परस्पर हितों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बुधवार शाम को डोगाल-शोइगु की बैठक ब्रिक्स (ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका) देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन के दौरान हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 23 अगस्त को कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत को लेकर भी दोनों एनएसए के बीच बातचीत हुई। रूस में भारतीय दूतावास ने डोगाल और शोइगु की मुलाकात पर कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और परस्पर हितों के अहम मुद्दों पर चर्चा की। गौरतलब है कि अजीत डोगाल की रूस यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा के ढाई सप्ताह बाद हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ अपनी मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध तुरंत समाप्त करने की अपील की थी और कहा था कि भारत क्षेत्र में शांति बहाली के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वहीं पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने भी अपने बयान में कहा था कि रूस-यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए यह भारत, चीन और ब्राजील की मध्यस्थता को स्वीकार कर सकते हैं।

प्रिंस हैरी को अमेरिकी अदालत से बड़ी राहत, वीजा स्थिति- ड्रग्स मामले में द हेरिटेज फाउंडेशन का मुकदमा खारिज

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की अदालत से प्रिंस हैरी को बड़ी राहत मिली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हैरी की वीजा स्थिति पर द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा लगाया गया मुकदमा समाप्त कर दिया गया है। संगठन ने हैरी के वीजा दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) के खिलाफ सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम (एफओआईए) मुकदमा दायर किया था। इस साल की शुरुआत में, जज निकोलस ने प्रिंस हैरी के वीजा रिकॉर्ड के निजी तौर पर समीक्षा करने का अनुरोध किया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के वकीलों ने अप्रैल में पुष्टि की थी कि उन्होंने इस अनुरोध का अनुपालन किया

है। यह मामला तब सामने आया था, जब प्रिंस हैरी ने ड्यूक ऑफ ससेक्स द्वारा अपने संस्मरण, स्पेयर में कोकीन, मारिजुआना और मैजिक मशरूम जैसे अवैध पदार्थों के उपयोग पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने लिखा, बेशक... मैं इस समय कोकीन का सेवन कर रहा था। किसी के ग्रामीण घर में, एक शूटिंग सप्ताह के दौरान, मुझे एक लाइन की पेशकश की गई थी, और मैंने तब से कुछ और किया है। इस पर हेरिटेज फाउंडेशन ने तर्क दिया कि ये स्वीकारात्मक अकेले यह तथ्य ही उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने और काम करने के लिए अस्वीकार्य बनाता है। हेरिटेज के वकीलों ने लिखा, मामला मुख्य रूप से इसलिए सामने आता है



क्योंकि एचआरएच (हिज रॉयल हाईनेस) ने स्वेच्छ से और अत्यधिक लाभ के लिए किसी भी संख्या में निवृत्त पदार्थ उल्लंघन के तत्वों को लिखित रूप में स्वीकार किया है। ड्यूक ऑफ ससेक्स ने इस तथ्य के बावजूद ऐसा किया कि ऐसे प्रवेशों से गैर-नागरिकों के लिए प्रतिकूल

आव्रजन परिणाम हो सकते हैं। दूसरी ओर, सरकारी वकीलों ने कहा कि हैरी के वीजा रिकॉर्ड का खुलासा करने से उनकी गोपनीयता का उल्लंघन होगा, उन्होंने तर्क दिया, रिकॉर्ड विशेष रूप से संवेदनशील हैं क्योंकि उन्हें जारी करने से, आंशिक रूप से भी, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रिंस हैरी की स्थिति का पता चल जाएगा, जिसका प्रिंस हैरी ने खुलासा नहीं किया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एफओआईए नियमों के तहत रिकॉर्ड से पता चलेंगे कि प्रिंस हैरी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के लिए किस प्रकार के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था, उनकी प्रवेश स्थिति और किसी भी आव्रजन, या गैर-आव्रजन, लाभ

जो उन्होंने मांगे होंगे। अदालत के रिकॉर्ड से पता चलता है कि वाशिंगटन, डीसी में न्यायाधीश कार्ल जे. निकोलस द्वारा जारी किए गए कई सीलबंद आदेशों के बाद, मामला आधिकारिक तौर पर 9 सितंबर को खारिज कर दिया गया था। हेरिटेज फाउंडेशन के ओवरसाइट प्रोजेक्ट के मुख्य वकील काइल बॉसनन ने न्यूनतम को बताया, प्रिंस हैरी ने अपने संस्मरण में बार-बार अवैध दवाओं का उपयोग करने की बात स्वीकार की है। यह तथ्य ही उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्वीकार्य बनाता है। उन्होंने बताया कि मुकदमा इस बात का जवाब देने के लिए था कि क्या हैरी को देश में प्रवेश करते समय अधिमान्य उपचार मिला था।

बिजली कटौती के कारण ठप हुई चीन की डिजिटल व्यवस्था, लोगों के पास ब्रेड खरीदने के लिए भी नकदी नहीं

बीजिंग, एजेंसी। यागी तूफान ने वियतनाम और चीन में तबाही मचा दी, जिसका असर आज भी दिख रहा है। छह सितंबर को यह तूफान चीन के हैनान प्रांत से टकराया था। यागी तूफान के कारण क्षेत्र में भारी बारिश हुई, जिससे आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। इस तूफान ने चीन को भारी तबाही मचाई, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तूफान के कारण उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें बिजली कटौती भी शामिल है। इस दौरान लोगों ने कैशलेस समाज में रहने की चुनौतियों का अनुभव साधा किया। बिजली कटौती के कारण लोग अपना मोबाइल उपकरण चार्ज नहीं कर पा रहे थे, जिससे उन्हें लेनदेन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।



में लोगों की परेशानियों का जिक्र किया गया। कैपिशन में कहा गया, तूफान के बाद पानी और बिजली काट दी गई। लोग मोबाइल उपकरण चार्ज करने के लिए परेशान हैं, क्योंकि उनका सारा पैसा मोबाइल वॉलेट में जमा होता है। बिना फोन के आप रोटी भी नहीं खरीद सकते।

कैशलेस समाज की कमजोरियों के बारे में चर्चा शुरू : वीडियो के वायरल होने के बाद संकट के समय में पूरी तरह से चार्ज करने के लिए एक इंजन-संचालित प्रणाली स्थापित की है। वीडियो के कैप्शन यह एक है, जहाँ विस्थापित फिलिस्तीनियों ने शरण ली हुई थी। गाजा में अब तक 41,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, और 95,000 से अधिक घायल हुए हैं। इजरायली हमलों में कई निरीक्षक नागरिकों की मौत हो रही है, जबकि सेना का दावा है कि वे आतंकवादियों को निशाना बना रहे हैं। इस संघर्ष ने गाजा के निवासियों को स्कूलों और खंडहरों में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया है, और मानवीय स्थिति लगातार बदतर हो रही है। इजरायली सेना का कहना है कि वह हमारा के आतंकवादियों को निशाना बना रही है, जो इन स्थानों का इस्तेमाल कर रहे थे। विशेष रूप से, इजरायल का दावा है कि स्कूल के अंदर से हमारा आतंकवादियों द्वारा हमले की योजना बनाई जा रही थी। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। इस हमले में मारे गए बच्चों में से एक गाजा की

यह एक है, जहाँ विस्थापित फिलिस्तीनियों ने शरण ली हुई थी। गाजा में अब तक 41,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, और 95,000 से अधिक घायल हुए हैं। इजरायली हमलों में कई निरीक्षक नागरिकों की मौत हो रही है, जबकि सेना का दावा है कि वे आतंकवादियों को निशाना बना रहे हैं। इस संघर्ष ने गाजा के निवासियों को स्कूलों और खंडहरों में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया है, और मानवीय स्थिति लगातार बदतर हो रही है। इजरायली सेना का कहना है कि वह हमारा के आतंकवादियों को निशाना बना रही है, जो इन स्थानों का इस्तेमाल कर रहे थे। विशेष रूप से, इजरायल का दावा है कि स्कूल के अंदर से हमारा आतंकवादियों द्वारा हमले की योजना बनाई जा रही थी। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। इस हमले में मारे गए बच्चों में से एक गाजा की

के बारे में बातचीत शुरू हो गई। वहीं एक अन्य वीडियो में इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भरता को लेकर भी चिंता जताई गई। लोग उपकरण चार्ज करने के लिए परेशान हैं, क्योंकि उनका सारा पैसा मोबाइल वॉलेट में जमा होता है। बिना फोन के आप रोटी भी नहीं खरीद सकते।

बॉस के साथ संबंध होना भारतीय मूल की वकील को पड़ा भारी, कंपनी ने नौकरी से निकाला

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में एक भारतीय मूल की वकील का अपने बॉस के साथ संबंध होना भारी पड़ गया। दरअसल, यह पता चलने पर कि कंपनी के सीईओ के साथ महिला का रिश्ता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। नॉरफॉक साउथन कॉर्पोरेशन की मुख्य कानूनी अधिकारी नवनीता नाग को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में यह दावा किया गया था कि उनका अपने बॉस (मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन शॉ) के साथ सहमति से रिश्ता चल रहा था। मामला सामने आने पर शॉ को भी नौकरी से निकाल दिया गया था। नॉरफॉक साउथन कॉर्पोरेशन ने कहा, हालांकि यह संबंध सहमति से था, लेकिन दोनों अधिकारियों ने संबंध बनाकर कंपनी की नीतियों और आचार संहिता का उल्लंघन किया। कंपनी की नीतियों का उल्लंघन का आरोप कंपनी ने आगे कहा, नाग को नौकरी से बर्खास्त करने का कदम शुरूआती जांच के निष्कर्षों के बाद उठाया गया है। जांच में पता चला है कि शॉ ने कंपनी की मुख्य कानूनी अधिकारी के साथ सहमति से संबंध बनाकर कंपनी की नीतियों का उल्लंघन किया है। शॉ को भी इसी वजह से नौकरी से निकाला गया है। उनके काम का इससे कोई मतलब नहीं है। नाग के करियर पर एक नजर बता दें, नाग ने खुद को लिंकडिन प्रोफाइल में खुद को अनुभवी बताया है। वह तीन फॉर्च्यून 300 सार्वजनिक



कंपनियों के साथ काम करती हैं। इससे पहले वह गोल्डमैन साक्स में काम करती थीं। उन्हें 2022 में मुख्य कानूनी अधिकारी और 2023 में कॉर्पोरेट मामलों का कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगर शुरूआती करियर की बात करें तो साल 2020 में नॉरफॉक साउथन में जनरल काउंसिल के रूप में शामिल हुईं थीं। उन्होंने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट और इंग्लिश में स्नातक की डिग्री और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से ज्यूरिस डॉक्टर की डिग्री हासिल की है। अब, कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी मार्क आर जॉर्ज को शॉ की बर्खास्ती के बाद अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया गया है।

इजरायल ने गाजा में स्कूल और घरों पर की बमबारी, बच्चों व यूएन कर्मियों सहित 34 की मौत

गाजा, एजेंसी। गाजा में चल रहे इस संघर्ष में हालिया घटनाक्रम में इजरायल की सेना ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के स्कूल और गाजा में दो घरों पर हवाई हमले किए, जिनमें कुल मिलाकर 34 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 19 महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इसके अलावा, मृतकों में संयुक्त राष्ट्र के 6 कर्मचारी भी थे। गाजा के अधिकारियों के अनुसार, इन हमलों में विस्थापित फिलिस्तीनी परिवारों ने उन स्थानों पर शरण ली हुई थी जिन्हें पहले सुरक्षित घोषित किया गया था। गाजा के अस्पतालों में लगातार घायलों की संख्या बढ़ रही है, जिसमें नुसैरात शरणार्थी शिविर के अल-जौनी प्रिपरेटरी बॉयज स्कूल पर हुए हमले में 14 लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो बच्चे और एक महिला शामिल थीं। साथ ही, हमलों में कम से कम 18 लोग घायल हो गए। गाजा में यूएन के संचालित स्कूलों में से

यह एक है, जहाँ विस्थापित फिलिस्तीनियों ने शरण ली हुई थी। गाजा में अब तक 41,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, और 95,000 से अधिक घायल हुए हैं। इजरायली हमलों में कई निरीक्षक नागरिकों की मौत हो रही है, जबकि सेना का दावा है कि वे आतंकवादियों को निशाना बना रहे हैं। इस संघर्ष ने गाजा के निवासियों को स्कूलों और खंडहरों में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया है, और मानवीय स्थिति लगातार बदतर हो रही है। इजरायली सेना का कहना है कि वह हमारा के आतंकवादियों को निशाना बना रही है, जो इन स्थानों का इस्तेमाल कर रहे थे। विशेष रूप से, इजरायल का दावा है कि स्कूल के अंदर से हमारा आतंकवादियों द्वारा हमले की योजना बनाई जा रही थी। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। इस हमले में मारे गए बच्चों में से एक गाजा की



नागरिक सुरक्षा एजेंसी को सदस्य की बेटी भी थी, जो घायलों को बचाने और हमलों के बाद शव निकालने का काम करता था। बता दें कि गाजा में संघर्ष अक्टूबर पिछले साल तब शुरू हुआ जब हमारा ने इजरायल पर बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी हमले किए थे, जिसमें लगभग 1,200 इजरायली नागरिक मारे गए थे और 250 से अधिक लोगों का अपहरण कर लिया गया था। इसके जवाब में, इजरायल ने गाजा पर सैन्य कार्रवाई शुरू की, जो अब तक जारी है। इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, लेकिन इजरायल और हमारा के बीच शांति वार्ता बार-बार विफल हो रही है। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए नई शर्तें पेश कर रहे हैं, जिसके कारण कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है।

युद्ध के मैदान में सैनिकों की जगह लेंगे रोबोट, ऑस्ट्रेलिया की सेना कर रही परीक्षण



केनबरा, एजेंसी। भविष्य में सैनिकों के स्थान पर रोबोट युद्ध लड़ने नजर आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सेना ने इसे लेकर कोशिश भी शुरू कर दी है। सेना एक मानव रहित रोबोट का परीक्षण कर रही है, जिसे जीएएस (ग्राउंड अनक्रूड सिस्टम) नाम दिया गया है। यह जोखिम भरे इलाकों में सैनिकों की जगह ले सकता है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि रोबोट का परीक्षण पिलबारा रेंजमेंट के सैनिक कर रहे हैं। यह रेंजमेंट ऑस्ट्रेलियाई सेना का रोजनल फोर्स सर्विलांस ग्रुप (आरएफएसजी) है। मंत्रालय के अनुसार, यह निगरानी रोबोट ऑस्ट्रेलिया में ही विकसित किया गया है। इसमें कैमरे और सेंसर लगे हैं, जो बैटरी के जरिए लगातार 30 दिनों से अधिक समय तक निगरानी कर सकते हैं। बैटरी की क्षमता कम होने पर एक ऑन-बोर्ड तरल इंधन जनरेटर इसे रिचार्ज करेगा। सेना के फ्यूचर लैंड वारफेयर के महानिदेशक ब्रिगेडियर जेम्स डेविस ने कहा कि रक्षा अधिकारी नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाली क्षमताओं को विकसित करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। मंत्रालय के मुताबिक, यह रोबोट गतिशील वस्तुओं का पता लगा सकता है और इस सूचना को रिमोट ऑपरेटर को भेज सकता है। जीएएस में निगरानी क्षेत्र का विस्तार करने की क्षमता है। यह सैनिकों को मुश्किल मौसमी हालात से निकालने में भी सक्षम है। ऑस्ट्रेलियाई सेना और उसके औद्योगिक साझेदार ने मिलकर जीएएस को विकसित किया है। इसका रिसेच और डेवलपमेंट विक्टोरियन शहर थिनार में चल रहा है। विक्टोरिया के सबसे बड़े शिक्षा संस्थान, फेडरेशन यूनिवर्सिटी के मेकट्रॉनिक्स शोधकर्ताओं ने सबसे पहले जीएएस को विकसित किया था।

## चिकित्सकों की हड़ताल के दौरान इलाज के अभाव में मरे 29 लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रु देंगे : ममता



कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि राज्य सरकार उन 29 लोगों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देगी, जिनकी आंदोलनकारी कनिष्ठ चिकित्सकों की हड़ताल की वजह से कथित तौर पर इलाज के अभाव में मौत हो गई। बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' जारी पोस्ट में लिखा, "यह दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि कनिष्ठ चिकित्सकों द्वारा लंबे समय से जारी हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान पैदा हुआ और हमने 29 बहुमूल्य जिंदगियां खो दीं।" उन्होंने कहा, "शोक संतप्त परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार प्रत्येक मृतक के परिवार को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करती है।" कनिष्ठ चिकित्सक नौ अगस्त को सरकारी अरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में झूटी पर तैनात एक महिला चिकित्सक का शव मिलने के बाद से 'काम बंद' आंदोलन कर रहे हैं। महिला चिकित्सक से कथित तौर बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।

## आजमगढ़ में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट सख्त.... 18 तक जवाब दें

प्रयागराज। यूपी के आजमगढ़ में कानूनी प्रक्रिया बिना अपनाए बुलडोजर से घर गिराने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बयान बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, जिसके कारण कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर को गिरा दिया गया। अदालत ने मामले में यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। बता दें कि जमीन विवाद को लेकर आजमगढ़ के डिपेंडिंग कलेक्टर ने 22 जुलाई को सुनील कुमार का घर गिराने का आदेश जारी किया था। आरोप है कि कुमार को सुनवाई का कोई मौका दिए बिना ही उनके मकान पर बुलडोजर चलाया गया। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पंडिया की सिंगल बेंच में हुई। अब इस मामले में हाईकोर्ट 18 सितंबर को सुनवाई करेगा। इसके बाद 18 सितंबर तक योगी सरकार को जवाब दाखिल करना होगा। बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों सुनवाई की थी। जिस पर सख्त टिप्पणी करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए थे। गुजरात के मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस हृदयेश राय, जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी को कोर्ट ने कहा है कि किसी शख्स के किसी केस में महज आरोपी होने के चलते उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश गुजरात के जावेद अली नाम के याचिकाकर्ता की याचिका पर दिया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि परिवार के एक सदस्य के खिलाफ एफआईआर के चलते उन्हें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से घर गिराने का नोटिस यानी धमकी दी गई है।

## श्रीलंकाई नौसेना से तमिल मछुआरों की नाव में मारी टक्कर, कई मछुआरे घायल

नई दिल्ली। कोडियाक्कराई के दक्षिण-पूर्व में मछली पकड़ने समय श्रीलंकाई नौसेना के जहाज से टक्करने के बाद तमिल मछुआरों की नाव डूब गई। इस घटना में कई मछुआरे घायल हो गए। यह टक्कर उस समय हुई जब वे इलाके में काम कर रहे थे। गश्त पर निकले श्रीलंकाई नौसेना के जहाज ने पर उनकी नाव को टक्कर मार दी, जिससे नाव समुद्र में डूब गई। घायल मछुआरों से श्रीलंकाई नौसेना के अधिकारियों ने करीब छह घंटे तक पूछताछ की इसके बाद उनका कोई चिकित्सा उपचार नहीं कराया। मछुआरों को आखिरकार मौकें पर पहुंचे अन्य स्थानीय मछुआरों को सौंप दिया गया और श्रीलंकाई नौसेना का जहाज वहां से चला गया। अन्य मछुआरों की मदद से डूबी हुई नाव को बरामद कर लिया गया और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पलटी हुई नाव और उसके ऊपर बैठे मछुआरे को तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मछुआरों ने जीपीएच इंडिया और मछली पकड़ने के जाल सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के क्षतिग्रस्त होने या खो जाने के कारण करीब 6.5 लाख रुपये का नुकसान होने की सूचना दी है। पूर्व एनडीएईएफके मंत्री जयकुमार ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले दस सालों के विपरीत, श्रीलंकाई नौसेना ने 2024 में बहुत सारे मछुआरों को गिरफ्तार किया है। यह मछुआरों के लिए बीच समुद्र में एक सतत संघर्ष बन गया है। उन्होंने क्षेत्र में तमिल मछुआरों के सामने आने वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

## सांसद अमृतपाल को हाईकोर्ट का नोटिस

अमृतसर। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सांसद अमृतपाल सिंह की संसदीय सदस्यता को दी गई चुनौती मामले में नोटिस जारी कर दिया है। अमृतपाल सिंह को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित करने के लिए विक्रमजीत सिंह द्वारा याचिका दायर की गई है। जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह को 25 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया। अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोर्ट पहुंचे विक्रमजीत सिंह ने याचिका में आरोप लगाया है कि अमृतपाल सिंह ने नामांकन पत्र में कई अहम जानकारियां छिपाई हैं। अपने चुनाव खर्च की कोई जानकारी नहीं दी है। जिसमें उनके समर्थन में रोजाना कई सभाएं की गईं और पैसा कहां खर्च किया गया, इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने अमृतपाल सिंह पर धार्मिक पहचान का इस्तेमाल कर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया है।

## कांग्रेस नेता जगदीश टाइलर के खिलाफ हत्या के आरोप तय

-दंगे के लिए भीड़ को उकसाने, घरों में जबरन घुसने और चोरी के भी आरोप

नई दिल्ली। 1984 के सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइलर के खिलाफ दिल्ली की अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने टाइलर के खिलाफ हत्या, गैरकानूनी तरीके से पकड़ होना, दंगा करना, दंगा भड़काना, अलग-अलग गुटों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, घरों में जबरन घुसना और चोरी के आरोप तय किए हैं। स्पेशल जज राकेश सिंघाने ने कहा है कि टाइलर ने सीबीआई के आरोपों पर कहा था कि वे दोषी नहीं हैं। इसलिए अब टाइलर के खिलाफ इन आरोपों के हिसाब से ही केस चलेगा। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। अदालत ने 30 अगस्त को पिछली सुनवाई में कहा था कि टाइलर के खिलाफ हत्या का केस चलाने के पर्याप्त सबूत हैं। सीबीआई ने मामले में टाइलर के खिलाफ 20 मई 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कहा था कि टाइलर ने भीड़ को उकसाया। इसके बाद गुरुद्वार में आग लगाई। इस हिसा में टाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह मारे गए थे। चार्जशीट के मुताबिक, एक गवाह ने आरोप लगाया था कि जगदीश टाइलर 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगला के सामने एक एंबेसडर कार से बाहर निकले। इसके बाद उन्होंने भीड़ को उकसाते हुए कहा था- सिखों को मारो, उन्होंने हमारी मां को मारा है।

## सूरत में बड़ी मात्रा में डुप्लीकेट गुटखा समेत 6 करोड़ से अधिक का माल-सामान जब्त

सूरत। सूरत पीसीबी-एसओजी ने शहर के सरौली थाना अंतर्गत सानिया हेमाद में प्रिंस एस्टेट के एक गोदाम पर छापा मारा और लाखों रुपये का डुप्लीकेट गुटखा समेत रु. 6 करोड़ से अधिक का माल-सामान जब्त कर लिया। साथ ही पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो आरोपियों को वाटेंड घोषित किया है। प्राथमिक जांच में पता चला कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भारी मात्रा में डुप्लीकेट गुटखा सूरत लाया जाता था और यहां पैक कर अन्य स्थानों पर भेजा जाता था। जानकारी के मुताबिक पूर्व सूचना के आधार पर सूरत पुलिस की पीसीबी और एसओजी ने शहर के सरौली पुलिस स्टेशन सीमा के तहत आनेवाले सानिया हेमाद रिफाईन प्रिंस एस्टेट के क्रिया शक्ति लॉजिस्टिक्स के गोदाम पर छापा मारा।

# जो ताकतें देश के खिलाफ चलती हैं राहुल गांधी उनके साथ चलते हैं

-केंद्रीय मंत्री अनुराग टाकुर ने जम्मू में कांग्रेस पर किया पलटवार

जम्मू (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू में एक सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग टाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 में यदि कांग्रेस की 20 सीटें और आ गईं होती तो ये सारे के सारे लोग जेल में होते।

अनुराग ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे में कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता नजर आती है। खड़गे चुनाव हारने के बाद भी लोकतंत्र और भारत की जनता का अपमान कर रहे हैं। वहीं विदेश में जाकर राहुल गांधी भारत को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। राहुल गांधी देश के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ नजर आते हैं। बीजेपी देश के टुकड़े करने वालों को जड़ से खत्म करने का काम करती है। कांग्रेस की



तानाशाही वाली मानसिकता नहीं चलेगी। इसे देश स्वीकार नहीं करेगा।

उन्होंने भारत विरोधी सांसद इल्हान अमर से राहुल गांधी की मुलाकात को देश

विरोधी बताया। टाकुर ने कहा कि जो ताकतें देश के खिलाफ चलती हैं राहुल गांधी उनके साथ चलते हैं। वह भारत विरोधी इल्हान के साथ मुलाकात करते हैं। वहां कौन सा झंडा था। यह लोग क्यों पाक अधिकृत कश्मीर से आए लोगों के और भारतीय समुदाय के हक छीनना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी क्यों आरक्षण को खत्म करना चाहती है।

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राज्य में चुनावों के बीच कश्मीर के अंतर्गत नए एक सभा में कहा था कि लोकसभा चुनावों में 400 सीटों का दावा करने वाले लोग 246 सीटों पर आ गए। यदि कांग्रेस पार्टी की 20 सीटें और आ गईं होती तो ये सभी लोग आज जेल में होते। ये लोग जेल में ही रहने लायक हैं। बीजेपी भाषण बहुत देती है, लेकिन इसकी कसनी और कथनों में बहुत ही ज्यादा फर्क है।

# भ्रष्ट केजरीवाल एक दिन झुकेंगे और लोग उनसे इस्तीफा मांगेंगे: भाटिया

-दिल्ली सीएम को जमानत मिलने पर बीजेपी बोली खुश होने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर बीजेपी में बौखलाहट नजर आने लगी है। वह इसलिए कि अब केजरीवाल हरियाणा में होने वाले चुनाव में प्रचार करने उतरेंगे। इन्हें सवे नजरिए के चलते बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कट्टर बेईमान, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को फिरे से आइना दिखाया है। जो आदेश पारित हुआ है, उसमें भ्रष्टाचारी केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है। आप नेताओं को ज्वाब खुश होने की जरूरत नहीं है। जमानत मिली है आरोप मुक्त नहीं हुए हैं।

भाटिया ने कहा कि अन्य आरोपियों के जमानत आदेश की शर्तें अरविंद केजरीवाल पर भी लागू होंगी। केजरीवाल का पासपोर्ट कोर्ट में रहेगा। वह विदेश नहीं जा सकते हैं। वह हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे।



वह गवाहों को डरा नहीं सकते और साक्ष्य को नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, उनका तर्क है कि मुख्यमंत्री का पद पर बने रहना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करता है।

भाटिया ने कहा कि कोर्ट में उनकी दलील थी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी किसी भी अवैधता से प्रक्रान नहीं है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दुषप्रचार का भंडाफोड़ किया। अरविंद केजरीवाल को किसी भी अदालत से कभी राहत नहीं मिली और न ही कोई आरोप रह गया है। उन्होंने कहा कि आप को जवाब देना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी को जोरो टॉलेंस है। भ्रष्ट केजरीवाल एक दिन झुकेंगे और लोग उनसे इस्तीफा मांगेंगे।

दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल से पद छोड़ने का

## टुकड़े-टुकड़े गैंग के अपराधियों में भी दिखाई देती है जाति : गिरिराज सिंह

प्रयागराज। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हिमाचल पूरे देश को संदेश देता है। जब तुम एकजुट रहोगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हिला सकती है। ना कोई गोरी आगना ना कोई मुगल। आज टुकड़े-टुकड़े गैंग के जो लोग सदस्य हैं। राहुल हो या अखिलेश यादव इन्हें अपराधियों में भी जाति दिखाई देती है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने यहां नैनी स्थित महान में शुक्रवार दोपहर शिल्प ग्राम का उद्घाटन करते पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि योगी जी को केवल अपराधी दिखाई देते हैं। यहीं अंतर योगी और अखिलेश में है। अखिलेश ने अपने कार्यकाल में केवल जाति देखा, गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया, लेकिन योगी ने केवल क्रिमिनल को दिखा। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि या तो अपराध न करो और घर बैठें या फिर ऊपर जाओ। उन्होंने आगे कहा कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ता, जो खड़गे ने कहा 20 सीट आता तो जेल दे देते। 76 का माहौल बनाना चाहते हैं। देश की जनता अब दोबारा तानाशाही को पनपने नहीं देगी। केजरीवाल के संबंध में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश के सामने बेटे की शपथ ली, आज उनकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के एमएसएमई, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान, विकास आयुक्त हथकरघा अमृत राज, मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत सहित तमाम लोग मौजूद रहे।



## दिल्ली-एनसीआर में बारिश से हालत बिगड़े, जलभराव से ट्रैफिक जाम



नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली-एनसीआर में तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। गुरुवार देर रात से ही दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और आस-पास के इलाकों में बारिश हुई जो शुक्रवार दोपहर तक जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई है लेकिन सड़कों पर भरे पानी ने वाहनों पर पर ब्रेक लगा दिया। दिल्ली में कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश के बीच पहाड़ोंजाम में शमशासन घाट की दीवार गिर गई। नवी करीम इलाके में एक मकान ढह गया। इसके बाद बारिश में कमी देखी जाने की उम्मीद है। अब वह इस डिप्रेशन से मिल चुका है। यह डिप्रेशन आठ किमी प्रति घंटे की स्पीड से उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर है। इसका असर ग्वालियर, आगरा, झांसी और अलीगढ़ में देखने को मिल रहा है। धीरे-धीरे ये उत्तर-उत्तर-पूर्व की तरफ बढ़ रहा है जिसका असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है।

# आखिर संघ प्रमुख भागवत ने क्या कह दिया... एनडीए को दुविधा में डाल दिया

नागपुर (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के

संरक्षकचालक मोहन भागवत के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब मुद्दे पर विपक्ष से लेकर एनडीए सहयोगी तक ने प्रतिक्रिया देकर कहा कि भागवत ने दुविधा में डाल दिया है। वहीं बीजेपी नेता इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं। मिलिंद पराडकर की किताब तंजावुर के मराठा का पुणे में भागवत ने लोकार्पण किया। इस दौरान भागवत द्वारा शिवाजी महाराज की समाधि का श्रेय लोकमान्य तिलक को दिए जाने से नया विवाद खड़ा हो गया है। पुणे में संघ प्रमुख भागवत के दावे ने कि स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महाराज की समाधि की खोज की थी। भागवत की इस टिप्पणी पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नेताओं ने समाज सुधारक ज्योतिराव से श्रेय छेन्नने की साजिश का आरोप लगाया है।

शिवाजी की समाधि कहाँ स्थित है?

1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद रायगढ़ के किले में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाद में वहां



उनकी एक समाधि बनी। हालांकि शिवाजी की मृत्यु के तुरंत बाद समाधि की उपस्थिति का विवरण देने वाला कोई समकालीन रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि एक दशक के अंतराल के बाद किले पर मुगलों का कब्जा हो गया और 1689 से 1733 तक उनके नियंत्रण में रहा। मराठों ने 1733 में किले पर पुनः कब्जा कर यह 1818 तक उनके नियंत्रण में रहा, जब तक की ब्रिटिश सैन्य ने आक्रमण नहीं किया था। कहा जाता है कि किले पर कब्जे के दौरान अंग्रेजों ने लगातार गोलाबारी की, जिससे समाधि सहित अंदर की कई संरचनाओं को नुकसान पहुंचा।

## हथौड़ा लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग खुद ही तोड़ने लगे मस्जिद, इसके बाद जो कहा वो कर देगा हैरान



शिमला (एजेंसी)। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हथौड़ा लेकर खुद ही मस्जिद तोड़ने की घटना की खूब चर्चा हो रही है। शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब मंडी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मस्जिद तोड़नी शुरू कर दी है। शिमला की सड़कों पर बवाल देख मंडी में रहने वाले मुस्लिम मस्जिदों के अवैध हिस्से को खुद ही तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मस्जिद का ये हिस्सा लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बनाया गया था जिसे तोड़ा जा रहा है। शिमला और मंडी में हिंदुओं का प्रदर्शन देख पहली बार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बड़ा पेलान किया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अमन शांति को बातें करनी शुरू कर दी है। मुस्लिम पक्ष ने अब खुज संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का प्रस्ताव रख दिया है।

मस्जिद के इमाम अब बोल रहे हैं कि अमन और भाई चारा बस बना रहना चाहिए। शिमला के जामा मस्जिद के इमाम मुस्ती मोहम्मद शफी कासमी ने कहा कि हमने इसमें (जापन) कहा है कि, इस क्षेत्र में इस सीमावर्ती राज्य में भाईचारे (समुदायों के बीच) की एक बड़ी आवश्यकता है। हम हमेशा यहां रहते हैं सद्भावना बनाए रखने के लिए यदि कोई हिस्सा (मस्जिद का) अवैध है, तो हमें बताना और मस्जिद का ये हिस्सा लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बनाया गया था जिसे तोड़ा जा रहा है। हमने यह आवेदन इसलिए दिया क्योंकि हिमाचल प्रदेश के सभी लोग दशकों से सद्भाव के साथ रह रहे हैं। हम भविष्य में भी सद्भाव और प्रेम से रहना चाहते हैं। 1% इसे राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए हमने यह आवेदन दिया कि हम उस हिस्से को खुद ही तोड़ दें। हम ऐसा किसी के

दबाव में नहीं कर रहे हैं, हम पर सिर्फ दबाव है कि सोहार्द बनाए रखना है। संजौली मस्जिद मामला शिमला पुलिस ने 11 सितंबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान पथराव में शामिल लोगों को पहचान कर ली है। पुलिस ने कहा कि मामले के साथ-साथ सामान्य उद्देश्यों के साथ गैरकानूनी सभा की जांच कर रही है। नागरिक समाज जिसमें इस विरोध का आयोजन किया और आह्वान किया, वह इस अपराधिक कृत्य के लिए जिम्मेदार होगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर से जमकर बवाल देखने को मिला। 11 सितंबर को संजौली में धारा 163 टूट गई और पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था।

